बर्ष:- 03 अंक:-345 मुरादाबाद 09 April 2024 (Tuesday) भारत सरकार से रजिस्टर्ड पृष्ठ:-8 RNI No.UPBIL/2021/83001 मूल्यः- ३.०० रूपया

#### प्रसारित क्षेत्र-बरेली, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा, अलीगढ, संभल, श्रावस्ती, अलीगढ और उत्तराखंड

वन्दे वाछितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम। वृषारूढां शूलधरा शैलपुत्रीं यशस्विनिम्।



मां दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के यहां पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया। यह वृषभ पर आरूढ़ दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में पुष्प कमल धारण किए हुए हैं। यह नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। नवरात्रि पूजन में पहले दिन इन्हीं का पूजन होता है। प्रथम दिन की पूजा में योगीजन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग बस्तर में पीएम मोदी बोले- जब तक गरीबी दूर नहीं कर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा; कांग्रेस को घेरा लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़



की बस्तर संभाग की दो सीटों

लक्ष्य देश को विकसित बनाना है।पीएम मोदी ने कहा कि मैं कहता हूं भ्रष्टाचारियों को जेल साधना शुरू होती है। जाना पड़ेगा ये मेरी गारंटी है। अफजाल अंसारी ने डिप्टी सीएम को कहा- सबसे बड़ा माफिया



अखिलेश की माफिया से रिश्तेदारी है वाले बयान पर पलटवार करते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि केशव प्रसाद खुद माफिया हैं। कहा कि उन पर 16 मुकदमें हैं और 302 के भी वो मुल्जिम हैं।सपा मुखिया अखिलेश यादव के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बड़ा गुंडा कोई नहीं हो सकता बयान के बाद मुख्तार अंसारी के भाई सपा के प्रत्याशी सांसद अफजाल अंसारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम को अफजाल अंसारी ने माफिया बताया है।डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने बयान दिया था कि अखिलेश की माफिया से रिश्तेदारी है, वह रिश्तेदारी निभाएं। हमारी माफिया से दुश्मनी है। हम दुश्मनी निभाएंगे। हम माफिया और अपराधी पर कानून के हिसाब से कार्रवाई है कि क्यों न ईवीएम पैट और करते रहेंगे। उस बयान के बाद अफजाल अंसारी ने कहा कि

और त्रिभुवन सिंह को बचाने में लगी है। कहा कि भले ही सरकार की साख को ताक पर रखकर हत्या करा दी जाए, ये बात और है। लेकिन, सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद माफिया हैं। उनपर 16 मुकदमें हैं और 302 के भी वो मुल्जिम हैं। वे विधायक का चुनाव भी हार गए। वे बेशर्म लोग हैं, जो हारने के बाद भी पद स्वीकार करते हैं और हारने के बाद भी लंबी-लंबी बातें करते हैं। केशव मौर्य, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी का जो तिलित्म है वो टूट चुका है। इस घटना से ही नहीं, पूरे देश को जो उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है। इस घटना के कारण ( मुख्तार की मौत से) दब गया इलेक्टोरल बांड का मुद्दा, सर्वोच्च न्यायालय ने अभी पूछा वीवीपैट का मिलान कराया

राम नवमी दूर नहीं है इस बार रामलला टेंट में नहीं मंदिर में दर्शन देंगे। इसकी सबसे ज्यादा खुशी राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को है। लेकिन कांग्रेस को ये रास नही आया जो नेता वहां पहुंचे उन्हें पार्टी से निकाल दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। यहां गरीब परिवारों को पक्का घर दिया। जिन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिला है उनको गारंटी दे देना की पांच साल में उन्हें भी लाभ मिलेगा। घर दे रहे हैं उसका मालिकाना हक भी महिलाओं के दे रहे हैं। हमने तीन करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का टारगेट रखा है।पीएम मोदी ने कहा कि मैंने लोगों की दुकानें बंद करवा दि है अब मेरी रक्षा कौन करेगा, आप करेंगे न। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार की जांच करवा रहे हैं। ये मोदी का सर लाठी से फोड़ने की बात कर रहे हैं। मोदी डरने वाला नहीं है। गरीबों को जिन्होंने लुटा उन्हें सजा जरूर मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में दिल्ली से एक रुपया निकलता था तो यहां 15 पैसा पहुचता था। हमने ये सिस्टम ही बंद कर दिया और सीधे गरीबों के खाते में

34 लाख करोड़ भेजे। सीधे पैसा भेजने से एक रूपये भी कोई नहीं खा पाया। कांग्रेस की सरकार होती तो पूरे पैसे खा जाते। पीएम मोदी ने कहा कि हमने सस्ती दवा की दुकान खोली, दुनिया में कोरोना संकट आया लोग कहते थे भारत कैसे बचेगा। गरीबों का क्या होगा। हमने गरीबों को मुफ्त वैक्सीन, राशन देने का वादा किया और दूसरे देशों में खाने के लिए दवा के लिए हाहाकार मचा था तब हमने मुफ्त में राशन, वैक्सीन दिया। मुफ्त राशन आज भी दे रहे हैं आने वाले 5 साल और देंगे। मुफ्त में राशन मिलने से पैसा पूरा कर रहा है। भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब का होता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राम मंदिर का समर्थन करने वाले नेताओं को कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया है। कांग्रेस ने राम मंदिर का न्यौता ठुकरा दिया है। कांग्रेस राम मंदिर बनने से खुश नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि दवा के लिए पैसे न हों तो उसकी मजबूरी मुझे पता है। हमारी सरकार ने गरीबों को उनका हक व्यक्त करने आया हूँ।

लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ने मोदी की गारंटी पर मोहर को मंहगाई समझ नहीं आई। राशन न हो तो माँ पर क्या बीतती जय के नारे के साथ अपने लिए बलीराम कश्यप हमेशा ने प्रगति की है मैं आपका आभार

दिया। देश मे 25 करोड़ से ज्यादा बस्तर से ही मैने आयुष्मान योजना की शुरुआत की थी जो पूरे देश मे सस्ता इलाज दे रही है। पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहे हैं। माँ बीमार होती है तो किसी को बताती नहीं है। वो डरती है कि इलाज में पैसे खर्च होंगे बच्चे कर्जदार होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बस्तर के लोगों लगाई है इसी विश्वास से पूरा देश कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीब का कल्याण है। कांग्रेस ने गरीब की परेशानी समझी ही नही। कांग्रेस कच्ची छत के नीचे रहने की तकलीफ मुझे पता है। घर में है पीएम मोदी ने माँ दंतेश्वरी की संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आदिवासी कल्याण के जागरूक रहे हैं। बस्तर ने मुझे और भाजपा को हमेशा आशीर्वाद दिया। मैं आपके बीच आया हूं पिछले दस साल में देश

#### सिवनी में राहुल गांधी ने आदिवासी और वनवासी में बताया अंतर, बीजेपी पर साधा निशाना कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी सिवनी जिले के धनौरा में सभा को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने

कहा, आदिवासी इस देश के और इस जमीन के पहले मालिक हैं। राहुल ने कहा, मध्यप्रदेश में एक

भाजपा नेता ने आदिवासी के सिर पर पेशाब किया। ये इनकी विचारधारा है। सिवनी पहुंचे राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब यहां दूर-दूर से मेरी बात सुनने आए हैं। यहां आदिवासी वर्ग के काफी सारे लोग मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है, दूसरी ओर बीजेपी, पीएम मोदी और अमित शाह आपको वनवासी कहते हैं। राहुल ने कहा कि इन शब्दों के पीछे दो अलग-अलग विचारधारा है। आदिवासी शब्द का मतलब, वो लोग जो इस देश के इस जमीन के पहले मालिक थे।उन्होंने कहा कि अगर आप



पहले मालिक थे, तो जमीन, जल, जंगल, देश के धन पर आपका हक बनता है। वहीं वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगलों में रहते हैं, वनवासी शब्द के पीछे एक विचारधारा है। सबसे पहले आपका जो इतिहास है, आपकी भाषाएं हैं, आपके जीने का जो तरीका है, उसको ये शब्द मिटाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर जब हम आपको वनवासी कहते हैं तो उसके अंदर ये छिपा हुआ है कि वनवासियों को ना जमीन का ना जल और ना ही जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो, जंगल में आपको कैसे अधिकार मिलेगा।

#### एनआईए अधिकारियों पर हमले को लेकर ममता बनर्जी का एजेंसी पर निशाना,

### कहा- पुलिस को बिना बताए की छापेमारी

रैली में ममता बनर्जी ने भूपतिनगर विस्फोट मामले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब है जून के बाद सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डालना।ममता बनर्जी ने बांकुरा में रैली को संबोधित करते हुए भूपतिनगर विस्फोट मामले की जांच के दौरान एनआईए अधिकारियों पर हुए हमले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रैली के दौरान बताया कि एनआईए स्थानीय पुलिस को बिना बताए छापेमारी करने गई थी। इससे पहले भी इस मामले को लेकर ममता ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां ईडी, एनआईए और सीबीआई, भाजपा के लिए काम कर रही हैं और बिना किसी जानकारी के छापेमारी कर रही हैं। रैली में उन्होंने इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी की



सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डालना इस मामले में अबतक में साल 2022 में हुए बम धमाके के मामले में छापेमारी करने और दो आरोपियों ( मनोब्रतो जाना और बालीचरन मैती) को गिरफ्तार करने पहुंची थी। इस दौरान जब एनआईए टीम दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लौट रही थी, तो स्थानीय लोगों ने एनआईए टीम पर पथराव किया। जिसमें एनआईए की गाड़ियों के शीशे टूट गए और कई अधिकारी घायल हुए। शनिवार को एनआीए की टीम 2022 में हुए भूपतिनगर विस्फोट मामले की जांच के लिए पूर्वी मिदनापुर पहुंची। उन्होंने इस मामले में जाना की पत्नी ने एनआईए के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि एनआईए की टीम जबरन उनके घर में घुसी और उनके घर में तोड़-फोड़ की।जाना की पत्नी ने एनआईए टीम पर उसका शील भंग करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी केंद्रीय जांच एजेंसियों और भाजपा की मिलीभगत का आरोप लगाया। टीएमसी का आरोप है कि बंगाल भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बीती 26 मार्च को एनआईए के सुपरीटेंडेंट से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में टीएमसी के नेताओं की लिस्ट दी है, जिन्हें

है कि उनकी टीम ने कानून के दायरे में रहकर ही छापेमारी की थी। पीएम मोदी के बयान पर ममता बनर्जी का पलटवार-बांकुड़ा में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने क्या-क्या हुआ बीते हफ्ते कहा कि पीएम मोदी के चार एनआईए की टीम भूपतिनगर जून के बाद भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के वादे का मतलब लोकसभा चुनाव के बाद सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डालना है। दरअसल, देशभर में सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे चार जुन को जारी होंगे। रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए बंगाल आ रहे हैं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। रविवार को जलपाईगुड़ी में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि जब वे कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, तब विपक्ष कहती है भ्रष्टाचार बचाओ। नतीजों के बाद भ्रष्टाचार को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी के इस बयान पर ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा, क्या किसी प्रधानमंत्री को ऐसे बोलना चाहिए? क्या होता अगर मैंने कहा होता कि मैं सभी भाजपा के नेताओं को जेल में डाल दूंगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि लोकतंत्र में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, मोदी की गारंटी का मतलब विपक्ष के सभी नेताओं गिरफ्तार किया जाना है। को जेल में डालना है।

एनआईए ने टीएमसी के

आरोपों को सिरे से खारिज कर

दिया है। एजेंसी ने दावा किया

## घिसी पिटी हिंदू-मुस्लिम स्क्रिप्ट के सहारे, घोषणा

#### पत्र को लेकर $\mathbf{PM}$ की टिप्पणी पर खरगे का पलटवार पीएम मोदी द्वारा कांग्रेस के आंदोलन था। श्यामा मुखर्जी ने





पूर्वजों ने अंग्रेजों का साथ दिया था- खरगे- सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए मिल्रकार्जुन खरगे ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। इनके वैचारिक पूर्वजों ने 1942 में महात्मा गांधी के %भारत छोड़ा आह्वान का विरोध किया था, जो मौलाना आजाद की अध्यक्षता में किया गया

लिया था मुस्लिम लीग का साथ- खरगे- मिक्कार्जुन खरगे ने कहा कि हर कोई जानता है। कि 1940 के दशक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके बंगाल, सिंध और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में अपनी सरकारें कैसे बनाईं। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर को यह नहीं लिखा था कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का मुकाबला कैसे किया जा सकता है और कांग्रेस को कैसे दबाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि %भारतवासियों को अंग्रेजों पर भरोसा करना होगा? खड़गे ने पूछा. पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उठाए थे सवाल- बता दें पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा-पत्र पर

टिप्पणी करते हुए कहा था कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप है, उसके नेताओं के बयानों में राष्ट्रीय अखंडता और सनातन धर्म के प्रति शत्रुता दिखाई देती है। वहीं जेपी नड्जा ने भी कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा की लागत अब खराब-मल्लिकार्जुन खरगे - मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि घिसी पिटी हिंदू-मुस्लिम स्क्रिप्ट का भाजपा सहारा ले रही है। पीएम मोदी पर तीखा तंज करते हुए उन्होंने कहा कि वह डर गए हैं कि भाजपा को 180 सीटों का आंकड़ा पार करने में संघर्ष करना पड़ेगा। भाजपा की स्थिति दिन-ब-दिन बदत्तर होती जा रही है। ऐसे में आरएसएस को अपने पुराने दोस्त मुस्लिम लीग की याद आने लगी है।

www.knlslive.com

### संपादकीय Editorial

#### Faith in tourism

As soon as Navratri was about to arrive, the devotees proved the arrangements at the Jwalamukhi temple useless. As the number of visits to the big temples became smaller in the list of weekend tourism, the claim that five crore tourists are waiting in Himachal was ruined. We shout about system and system without understanding the reasons while nothing is happening either in the vision of the plan or in the structure of the future The effort to fill the hands of hotels with all tourism is so dominant that every side of power also sees its name in government hotels. The temple certainly came in the sights of every government, but the government announcements kept occupying the revenue card. Temples were buildings until devotees were tourists. Now they are more tourists and less devotees. The number of visitors to the big temples of Himachal increased, but the number of visitors did not increase. The reasons are as many in Jwalaji as they are in Chintpurni, Deyotsiddh or any other temple complex. We incurred expenses to study South Indian temples, but even after preparing the report, we learned nothing. In such a situation, questions are seen not only in the chaos of the temple premises but also in every journey on the road. We hear praise of big destinations in all the announcement and projects of tourism, but we are not ye able to know that about 80 percent of the tourists in Himachal come either as temple pilgrims or religious tourism has taken them to destination tourism. Neither tourism bridges were seen nor was any effort made to make religious places a permanent pillar of the economy. If the government wants to see tourism in large numbers tomorrow, then first of all it will have to establish master plan and governing bodies of temple complexed and religious cities. It will be possible to give the shape of religious tourism to temple tourism only if a central temple trust and temple development authority is formed for this. If proper utilization of temple income is given priority and disciplined attention, it will not only lead to desired urban development but will also generate economic growth. The question is not of revolution, but of changing the scenario. If we accept the importance of tourism in the power of temples, then the character of the schemes will change. Till now the political and administrative view on temple income has been only for exploitation whereas these have to be developed in the form of circuits. In the vicious cycle of income and expenditure, neither administrative reforms nor capacity was expanded in the temples. For example, if Jwalaji temple is to be developed as a religious centre, then a comprehensive urban development plan will have to be prepared. By streamlining the area of the temple complex from eight to ten kilometers, parking, entertainment, business and places related to religious beliefs can be clubbed together. The Samadhi of Dhyanu Bhakta at Nadaun can be added along with the Jwalaji temple complex, while heritage villages like Garli-Paragpur can also come within its periphery and add to the diverse facilities. Along with the Jwalaji complex water sports and an art center can be expanded in the Beas river. To increase the income of the temples, till now only the coins offered by the devotees have been counted whereas the economy will increase only by taking forward the activities of religious places and infrastructure construction. A Culture Minister, Mukesh Agnihotri helped Chintpurni temple earn two crore rupees in income just by conducting VIP darshan, then with many such solutions, Himachal can increase the economy centered on half dozen religious places to five crore rupees provided the policy makers of Shimla are interested in tourism. Understand faith in temples. Till now the income of the temples has not been utilized properly, whereas the expenditure based on it should promote

## Issue: Negligence in spending the annual budget, jails becoming home to diseases; It is important to focus on improving the system

Keeping a large number of prisoners together in jails beyond their capacity increases the possibility of diseases spreading among each other. The hellish conditions created by keeping prisoners beyond their capacity in Indian jails not only violate the rules of the United Nations, Rather, it is also a violation of human rights. This pain has been expressed not by any human rights activist, but by Prayeen Kumari Singh, Director (SR) under the Home Ministry herself, in a circular issued on May 9, 2011 to the Principal Secretaries of Home and Prisons and Police Chiefs of all the states. Concern has been continuously expressed in the Parliament over the condition of jails. Due to more number of prisoners being kept together in jails than their capacity, there is a greater possibility of diseases spreading among each other. The health problems of people in prisons arise due to human rights violations, lack of health services, and absence of justice-based alternatives. The physical infrastructure of prisons, the risk of overcrowding and the frequent movement of prisoners increase the risk of spread of diseases such as TB. The jails of India, which has the largest population in the world, are also full. Prisoners in India are five times more likely to contract tuberculosis (TB) than the general population, according to a global study published in the Lancet Public Health journal. A study published in the July, 2023 edition of the journal found that there were 1,076 cases of TB per 1 lakh prisoners in India's prisons. Researchers found a direct correlation between tuberculosis incidence rates nationally and overcrowding in prisons. According to experts, the number of tuberculosis (TB) patients is high in jails due to overcrowding and lack of ventilation. In a study published in the International Journal of Infectious Diseases in 2017, researchers studied the system of TB treatment and testing in Indian prisons, and found that only 18 percent of diagnosis or treatment, 54 percent of treatment and timely There was a system of investigation only in 60 percent of the jails. According to the 'Prison Statistics India Report-2022' of the National Crime Records Bureau, on December 31, 2022, a total of 5,73,220 people were incarcerated in the jails of India, while a total of 1,330 jails in the country had The capacity was only 4,36,266 prisoners. If seen this way, 131.4 percent more prisoners were kept in these jails than their capacity. Some states like Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Telangana, Manipur and Nagaland had less prisoners than their capacity, while in some states like Uttarakhand, Uttar Pradesh, Delhi, Maharashtra and Jammu and Kashmir, prisoners are crammed like sheep. . In the jails of a peaceful and small state like Uttarakhand, as of January 31, 2024, 6,603 prisoners were lodged against the total capacity of 3,461 prisoners. About 75 percent of these prisoners were undertrials. According to the said jail statistics, out of all the prisoners lodged in jails, only 1,33,415 prisoners were convicted and the remaining 4,34,302 were undertrial prisoners. Among these undertrial prisoners, there are many who have been serving their sentence in jails for more than five years even before being proven guilty by the court. According to information given by Union Minister of State for Home Ajay Mishra in the Lok Sabha on February 6, 2024, there are 33,980 undertrial prisoners for two to three years, 25,869 undertrial prisoners for three to five years and 11,448 undertrial prisoners for more than five years in Indian jails. Were waiting for. Some of them may be innocent and some may get less punishment, but they are already serving a sentence without any reason. In these overcrowded jails, there is not only a lack of normal human facilities, but there is also a severe lack of health facilities, due to which the prisoners keep dying in the jails. According to prison statistics, there were 1,995 deaths in the country's prisons in the year 2022, of which 1,773 were natural and 159 unnatural deaths, including suicides. Natural deaths included diseases such as tuberculosis. The total budget for Indian prisons in the year 2022-23 was Rs 8,725 crore, out of which only Rs 7,781.9 crore could be spent. Therefore, attention should also be paid to improving the system of jails.

## Manthan: Will children become an election issue? It is necessary to skill the youth population for demographic dividend.

Only the young population can bring the so-called demographic dividend. This will be realized only when Indian children grow up to be educated, skilled and healthy. This will make them more capable and prepared to deal with the uncertain and ruthless competitive world. Common citizens should raise these issues before the elections. India is ready for the Lok Sabha elections and the election process has already started. Political pundits will also tell about the mood of the country, distribution of seats and prospects of the candidates etc. It appears that the government led by Prime Minister Narendra Modi will return to power at any cost. But in the meantime we also have to ask ourselves some questions. As ordinary citizens, we should pause and ask a fundamental question about what we can expect. Being a common Indian citizen and parent, my answer would be that which ensures a better future for the children. I am talking about absolutely normal children, whose parents neither have much money nor contacts with influential people. Why is this relevant? The short answer is that without paying attention to children, it is not possible to quickly fulfill India's dreams and aspirations. The children of the rich always find their way and they will do so no matter who comes to power. They have many options in many countries. My concern is for the remaining children who lack the resources to fulfill their dreams. Raghuram Rajan, former governor of the Reserve Bank of India, and Rohit Lamba, professor of economics at Pennsylvania State University, write in their recent book Breaking the Mold Reimagining India's Economic Future that despite its impressive economic growth, India has to grapple with childhood challenges. Used to be. It doesn't matter what you think of these authors though. You may also disagree with his global outlook, but the relevant things he has said about the future of India are important. Rajan and Lamba write in the chapter titled 'The Childhood Challenge' that India's challenges begin at the very beginning with mother and child nutrition. Many children in our country are born underweight and remain malnourished in the early years of their lives. The problem of enrollment of children in primary schools has been resolved to a great extent, but their condition in terms of learning is very poor. The combination of poor early health and learning conditions hampers the cognitive and physical development of our children. This limits what they can achieve in later life. These authors say that a child two places below the World Health Organization (WHO) standard is considered a dwarf, who is short in height compared to his age. In 2020, despite three decades of strong economic growth, 35 percent of our children under five years of age were stunted. Being an Indian, the question that comes to mind is how some neighboring and poor African countries in the sub-Saharan region like Tanzania, Liberia and Senegal are doing better than us. The author points out that many influential policy experts in India argue that genetics give Indian children a different growth pattern i.e. a different pattern of height for age. But Rajan and Lamba point to a surprising fact. They say that the genes of the people of Sri Lanka are probably similar, yet their level of stunting is lower than that of Indians. At the same time, studies have found that South Asian children living in America and Britain are stunted within one generation. Reach the average height of their peers. Therefore the authors believe that the idea of genetics is not completely correct. He says we really need to review what pregnant women and children are eating across different social and economic groups. It is an undeniable fact that chronic malnutrition in childhood can reduce the intellectual and functional level of an adult person. There is also a risk of diseases and heart disease. Certainly extreme poverty has reduced in India. In recent years, the Modi government's scheme to provide free food grains to 80 crore people has stopped starvation in the country. Despite this, what could be the reason for such a large number of malnourished children? The reason for this is not paying enough attention to the eating patterns and habits of pregnant and lactating women and infants. A large number of children and women in India suffer from anemia. Middle class people are also included in this. Therefore, we should talk about these issues with the political parties coming to seek votes. The reality of educational quality comes to light from the data of 'The Annual Status of Education Report (ASER)' released in the year 2023. This report focuses on rural India. More than half of children aged 14 to 18 were having difficulty dividing three-digit numbers by one digit. Only 43.3 percent children of this age group were able to solve the questions correctly. This skill is usually expected in third and fourth grade. Only a little more than half (57.3 percent) of the children can read English sentences. This picture is at the national level. There are huge disparities between states and districts. Many argue that these are normal and non-political issues. But what could be more important than the future of Indian children and the demographic dividend? Only the young population can bring the so-called demographic dividend. This will be realized only when Indian children grow up to be educated, skilled and healthy. This will prepare them to deal with the uncertain and ruthless competitive world. Common citizens should raise these issues before the elections. Those seeking votes should also listen to this and tell what their action plan is and what will be its time limit. But what could be more important than the future of Indian children and the demographic dividend? Only the young population can bring the so-called demographic dividend. This will be realized only when Indian children grow up to be educated, skilled and healthy. This will prepare them to deal with the uncertain and ruthless competitive world. Common citizens should raise these issues before the elections. Those seeking votes should also listen to this and tell what their action plan is and what will be its time limit. But what could be more important than the future of Indian children and the demographic dividend? Only the young population can bring the so-called demographic dividend. This will be realized only when Indian children grow up to be educated, skilled and healthy. This will prepare them to deal with the uncertain and ruthless competitive world. Common citizens should raise these issues before the elections. Those seeking votes should also listen to this and tell what their action plan is and what will be its time limit. But what could be more important than the future of Indian children and the demographic dividend? Only the young population can bring the so-called demographic dividend. This will be realized only when Indian children grow up to be educated, skilled and healthy. This will prepare them to deal with the uncertain and ruthless competitive world. Common citizens should raise these issues before the elections. Those seeking votes should also listen to this and tell what their action plan is and what will be its time limit. But what could be more important than the future of Indian children and the demographic dividend? Only the young population can bring the so-called demographic dividend. This will be realized only when Indian children grow up to be educated, skilled and healthy. This will prepare them to deal with the uncertain and ruthless competitive world. Common citizens

should raise these issues before the elections.

संक्षिप्त समाचार

पति को बाथरूम में

दिखाता था अश्लील वीडियो

उसका रास्ता रोकता है और

जबरन पकड़कर छेड़छाड़ करता

है। किशोरी ने पिता से शिकायत

की तो आरोपी ने उसके पिता से

भी गाली-गलौज कर मारपीट

करने की कोशिश की थी।

आरोपी शादीशुदा है। पीड़िता ने

आपबीती कहते हुए बताया कि

आरोपी करीब ढाई साल पहले

एक महिला को बहला-फुसला

कर ले आया था, उसकी गोद

में लड़का था। अब उसके एक

और बेटी हुई है। इसके बाद भी

वह छात्रा को अपनी हरकतों से

स्कूल छोड़वाकर घर बैठने पर

मजबूर कर दिया है। किशारी

छात्रा ने बताया कि आरोपी की

हरकतों के कारण ही उसने

कक्षा-नौ की वार्षिक परीक्षा भी

नहीं दे पाई। अर्द्धवार्षिक परीक्षा

के बाद वह स्कूल नहीं गई।

उसका स्कूल घर से करीब दो

किमी दूर पंडित नगला पुलिस

चौकी क्षेत्र में पड़ता है। पीड़िता

ने बताया कि वह सात भाई-

बहनों में सबसे छोटी है। दो बड़ी

बहनें हैं और इसके बाद उसके

## लोकतंत्र का पर्व, देश का गव... युवक से तंग आकर किशोरी ने रैंली निकालकर मतदाताओं को छोड़ दिया स्कूल, रास्ता रोककर किया जागरूक



कलेक्ट्रेट परिसर से निकली रैली पीलीकोठी, फव्वारा चौराहा, मानसरोवर, प्रकाश नगर होते हुए कंपनी बाग वापस आई

चरण में जिले में होने वाले महिला एवं बाल विकास, मतदान में शत प्रतिशत वोट स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों डलवाने के लिए सोमवार को ने रैली में सहभागिता की। हाथ क लेक्ट्रेट से मतदाता में तिख्तयां लेकर 19 अप्रैल को जागरूकता रैली निकाली गई। जिला निर्वाचन अधिकारी हाल में करने का आह्वान किया मानवेन्द्र सिंह, उप जिला गया। निर्वाचन अधिकारी आदि ने रैली का नेतृत्व कर लोगों को गर्व, पहले मतदान, फिर करेंगे शत प्रतिशत मतदान के लिए जलपान आदि संदेशों के

इस रैली में विशेषकर किया गया। महिला मतदाताओं को जागरूक करने का उद्देश्य रखा अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कहा

मुरादाबाद- 19 अप्रैल को प्रथम शिक्षा विभाग के अलावा अपने मताधिकार का प्रयोग हर

> लोकतंत्र का पर्व, देश का माध्यम से मतदान के लिए प्रेरित

जिला निर्वाचन गया। माध्यमिक शिक्षा, बेसिक कि मतदान संवैधानिक

अधिकार व कर्तव्य दोनों है। मजबूत लोकतंत्र के लिए बेहतर जनप्रतिनिधियों को चुनना मतदाताओं का फर्ज है। वह लोकतंत्र के महापर्व में मतदान कर एक मतदाता और सच्चे व जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएं। मतदाताओं को बूथों पर तैनात कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। लोगों से अपील है कि वह 19 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें।

मुरादाबाद- युवक से तंग आकर आरोपी से भयभीत होकर किशोरी ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। इस मामले में उसने एक अर्द्धवार्षिक परीक्षा के बाद से बार पहले भी एसएसपी से गुहार लगाई थी। कार्रवाई न होने पर पढ़ाई छोड़ घर बैठ गई छात्रा, पीड़िता सोमवार को फिर एसएसपी कार्यालय पहुंची थी। छात्रा ने बताया, ढाई साल पहले पीड़िता ने बताया कि वह कक्षा-9 की छात्रा है। वह कटघर थाना दूसरे की पत्नी को बहला-क्षेत्र के गांव की रहने वाली है। उसने बताया कि स्कूल आते-फुसला कर ले आया था आरोपी जाते उसके गांव का युवक

चार बड़े भाई हैं लेकिन, आरोपी न उसके माता-पिता का दबाव मानता है और न ही भाइयों का, वह इन सबको धमकाता है। पीड़िता ने बताया आरोपी से धमकाता है कि वह उसके भाइयों के विरुद्ध कुछ भी करा सकता है। छात्रा ने बताया कि आरोपी उसकी मां से भी गाली-गलौज कर जान से मार देने की धमकी दे चुका है। पीड़िता ने बताया कि उसके माता-पिता गरीब हैं। स्कूल की फीस तक समय से अदा नहीं कर पाते हैं। उसकी मां बकरी पालती हैं और उनको बेचकर किसी तरह से स्कूल की फीस भरती थीं। गरीबी के कारण ही छात्रा अपने घर से स्कूल पैदल आती-जाती थी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी की गलत हरकतों के कारण ही आज वह पूरे गांव से मुंह छिपाने को विवश हो गई है। हालांकि इस मामले में एसएसपी हेमराज मीना ने कटघर थानाध्यक्ष को तत्काल

कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कटघर थानाध्यक्ष तेजवीर सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है। एसएसपी कार्यालय से प्रार्थना पत्र मिलते ही कार्रवाई करेंगे। रास्ता रोककर दिखाता था अश्लील वीडियो-छात्रा ने बताया कि स्कूल आते-जाते आरोपी से रास्ते में रोक लेता था और जबरन छेड़छाड़ करता था। उसे पकड़ कर मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाता था। न देखने पर मारने लगता था। भाई-बहन व माता-पिता को नुकसान पहुंचाने की बात कहकर धमकाता था। पीड़िता ने बताया कि इस मामले में वह पंडित नगला पुलिस चौकी पर भी कई बार जाकर शिकायत दर्ज कराई। यहां सुनवाई नहीं हुई तो वह कटघर थाने भी गई लेकिन, वहां भी उसे कोई राहत नहीं मिली तो वह पूर्व में भी एसएसपी कार्यालय आई थी और प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी।

बेटी को बताया कि 25,000 रुपये आने थे। यह

को समझने में देर नहीं लगी और उन्होंने तुरंत पुलिस

गुहार लगाई थी। ये घटना 18 फरवरी 2024 की

मुगलपुरा थाने में अज्ञात के विरुद्ध आइटी एक्ट

स्ट्रीट मंडी चौक के पवन अग्रवाल ने बताया कि

रखी है। उसके 25,000 रुपये उनके खाते में आने

कॉल आई थी तो बेटी ने रिसीव किया था, कॉलर

कॉलर ने कहा, त्रुटिवश 15,000 के स्थान पर

रुपये बताए गए खाते पर लौटा दें। पवन ने बताया

के मैनेजर की तरफ से बताए गए खाते पर 25,000

बेटी ने जानकारी दी तो उन्होंने अपने बैंक खाते में

बाद उनके बैंक खाते में 25,000 बीमा कंपनी से

यानी साइबर ठग की धोखाधड़ी के कारण चोरी

बाद से वह साइबर ऋाइम सेल के चक्कर काट रहे

का फर्जी अश्वासन दे रहे थे। लिहाजा, 49 दिन

लोग मंदिरों की साफ सफाई

वजह से व्रत-पूजन सामग्री

में ग्राहकों की भीड़

माता मंदिर में श्रद्धालुओं की

महिलाओं और पुरुषों के लिए

है। वहीं मंदिर के आसपास

किया जा रहा है।लेकिन रास्ते

यहां के महंत राम गिरी

ली गई हैं। वहीं शहर के

माता मंदिर, शिव शक्ति

को भी सजाया जा रहा

दुकानों के साथ-साथ बच्चों

हैं। वहीं, बाजार में भी माता

बंद कर लापता हुई दो बच्चों की मां

**मुरादाबाद- सिविल लाइंस क्षेत्र निवासी** दो बच्चों की मां पति को बाथरूम में बंद कर घर से लापता हो गई। पति ने आशंका जताई है कि राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र निवासी युवक के पास गई है। युवक की पत्नी से धौलपुर के व्यक्ति से फेसबुक पर दोस्ती थी। शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चक्कर की मिलक निवासी पॉलिश ठेकेदार ने बताया कि 11 मार्च को उसका एक बेटा रिश्तेदारी में गया था। दूसरे बेटे को पत्नी ने घर का सामान लेने को भेज था। दोपहर करीब दो बजे जब पॉलिश ठेकेदार नहाने के लिए बाथरूम में घुसा तो पत्नी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और वह घर से निकल गई थी। उधर, जब बेटा घर लौटा तो पिता का शोरगुल सुनकर बाथरूम का दरवाजा खोला। ठेकेदार ने पत्नी की तलाश की लेकिन, कुछ पता नहीं चला। कई दिनों तक वह पुलिस चौकी पर पत्नी की खोज के लिए गुहार लगाता रहा। इसके बाद शनिवार को ठेकेदार दोनों बच्चों के साथ सिविल लाइंस थाने पहुंचा था। उसने थानाध्यक्ष को बताया है कि उसकी पत्नी स्मार्ट फोन चलाती थी। फेसबुक पर उसकी राजस्थान के धौलपुर निवासी युवक से बातचीत होती थी। ठेकेदार को संदेह है कि उसकी पत्नी उसी युवक के पास गई है। पत्नी के लापता होने के बाद से उसका मोबाइल फोन बंद है। थानाध्यक्ष राम प्रसाद शर्मा ने बताया, महिला के गायब होने की सूचना मिली हे। पता लगा रहे हैं। उसके मोबाइल की सीडीआर निकलवा रहे हैं।

अब तेरे साथ नहीं रहना: 25 दिन बाद ही पत्नी को छोड़ भागा युवक, लेटर दे कहा- जबरदस्ती हुई शादी..मेरी पसंद दूसरी

मुरादाबाद- रामपुर जिले में शादी के 25 दिन बाद ही युवक पत्नी को छोड़कर घर से भाग गया।परिजनों ने उसकी गुमशुदगी

उसने पत्नी को दिए लेटर में लिखा है कि उसकी शादी जबरदस्ती करवाई गई। उसकी पसंद की लड़की दूसरी है। सैदनगर में शादी के 25 दिन बाद ही युवक अपनी पत्नी को छोड़कर फरार हो गया। युवक का आरोप है कि उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी की है। उसकी पसंद की लड़की कोई दूसरी है। मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र के मिलक बहादुरगंज निवासी एक युवक की 25 दिन पहले बरहैनी की युवती से शादी हुई। शनिवार सुबह को युवक घर से ससुराल जाने की बात कहकर

मगर वह युवक ससुराल नहीं पहुंचा। इसकी जानकारी उसके परिजनों को मिलने पर उनमें खलबली मच गई। जिसकी गुमशुदगी चौकी खोद में दर्ज करवाई। आरोप है कि शादी के दो दिन बाद ही युवक पत्नी के साथ गलत व्यवहार करने लगा। युवक पत्नी को पसंद से शादी नहीं होने का हवाला देता था। कहता था कि मेरी शादी जबरदस्ती कराई है। तुझे अपने साथ

29 मार्च को एक लेटर देकर घर से भी भाग गया था। लड़की पक्ष ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो वह वापस आया। युवक के फरार होने के बाद गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में कोई फैसला नहीं हुआ, जिसके बाद लड़की पक्ष ने पुलिस का सहारा लिया और तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की।

युवकों ने युवती से की छेड़खानी-बाथरूम में नहा रही युवती को गांव के ही दो युवकों ने पकड़ लिया। उसके साथ छेड़खानी की गई। विरोध करने पर मारपीट भी की। मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। रहरा थाना क्षेत्र के गांव में युवती दोपहर को अपने घर पर बाथरूम में स्नान कर रही थी। तभी गांव के ही दो युवक घर में घुस गए और युवती को पकड़ छेड़खानी करने

घटना के वक्त युवती के परिवार के लोग खेत पर गए हुए थे। इसी बीच युवती का भाई मौके पर पहुंच गया। युवती ने शोर मचाया तो आरोपी अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए फरार हो गए।

पीड़ित युवती के भाई ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत पुलिस से की। सीओ दीप कुमार पंत ने बताया कि मामले में गांव के ही दो युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई

#### क्यूँ न लिखूँ सच

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक नरेश राज शर्मा द्वारा ए०एच०प्रिंटर्स, ए-11, असालतपुरा, लंगड़े की पुलिया, मुरादाबाद-244001(उत्तर प्रदेश) से छपवाकर कार्यालय म.नं. 210 खा सीतापुरी,डबलफाटक जनपद-मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं वितरित किया।

संपादक - नरेश राज शर्मा

मो. 9027776991 RNI NO- UPBIL/2021/83001

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेत् पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे तथा समस्त विवाद

क्यूँ न लिखूँ सच समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक है

## मैसेज आया 40,000 का, रुपये आए 25,000...वह भी हो गए चोरी

मुरादाबाद- खातेदार के बैंक खाते में बीमा कंपनी से 25,000 रुपये आए थे लेकिन, बीमा पॉलिसी धारक के मोबाइल पर मैसेज 40,000 रुपये ट्रांसफर होने का आया। मैसेज आते ही साइबर ठग की कॉल आ गई, बोला आपके खाते में 15,000 रुपये भेजने थे लेकिन, त्रुटिवश 40,000 रुपये ट्रांसफर हो गए हैं। साइबर ठग की कॉल बीमा पॉलिसी धारक की बेटी ने रिसीव की थी। बेटी से साइबर ठग अपने बताए खाते पर 25,000 रुपये ट्रांसफर कराने में सफल हो गया। इसी बीच बेटी के पिता पवन अग्रवाल घर पहुंचे थे। बीमा कंपनी से पैसे आने से खुश बेटी ने पिता को जानकारी दी और पूछा

कि बीमा कंपनी से कितने रुपये आने थे। पवन ने सुनकर बेटी ने पिता को पूरी बात बताई। पवन लाइन में साइबर ऋाइम सेल पहुंचकर मदद की है। अब 49 दिन बाद इस मामले में रविवार को में एफआईआर दर्ज हुई है। मुगलपुरा में जीलाल उन्होंने बेटी के नाम से बीमा कंपनी में पॉलसी ले थे। 18 फरवरी को दोपहर 12.35 बजे फोन पर ने कहा कि वह बीमा कंपनी से मैनेजर बोल रहे हैं। 40,000 रुपये ट्रांसफर हो गए हैं। इसलिए शेष कि इस कॉल के बाद बेटी ने कथित बीमा कंपनी रुपये ट्रांसफर कर दिए थे। जब वह घर पहुंचे और ट्रांसफर भी हुए हैं, जो कथित बीमा कंपनी मैनेजर हो गए हैं। पवन का आरोप है कि घटना होने के थे और सेल कर्मी ठग के बारे में खुलासा करने

पॉलिसी का पैसा आने से पहले साइबर ठग की आ गई कॉल, उसने ठग लिए रुपये, बीमा कंपनी के कर्मियों पर डाटा लीक करने का आरोप, साइबर

ऋाइम सेल भी दबाए रहा मामला बैलेंस जांचा तो पाया कि कॉल आने के 40 सेकेंड

पैसा बीमा पॉलिसी धारक को देने से पहले जानकारी साइबर ठगों से लीक कर देते हैं और विवरण भी उन्हें उपलब्ध करा देते हैं। उनका तर्क है कि जब साइबर ठग की कॉल आई, उसके 40 सेकेंड बाद उनके खाते में पॉलिसी का पैसा आया...तो उनके खाते में बीमा का पैसा ट्रांसफर हो रहा है ये बात साइबर ठग को पहले से कैसे पता। जाहिर है कि बीमा कंपनी के कर्मी ने पैसा भेजने से पहले डाटा लीक

बीत गए और साइबर क्राइम सेल की कार्रवाई शून्य ही रही है। अब उनके ( पवन अग्रवाल ) के कहने पर ही मामले को साइबर क्राइम सेल ने मुगलपुरा थाने में ट्रांसफर किया है तो अज्ञात के विरुद्ध आइटी

एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। बीमा कंपनी के लोग लीक करते हैं जानकारी- साइबर ठगी से पीड़ित पवन अग्रवाल का कहना है कि बीमा कंपनी अब विश्वास वाली नहीं रहीं। इनके कर्मी इंश्योरेंस का

#### नवरात्र पर सज गए मुरादाबाद के मंदिर, व्रत व पूजन सामग्री खरीदने के लिए बाजारों में भीड़

मुरादाबाद- चैत्र नवरात्र के अवसर पर मुरादाबाद के सभी मंदिरों को सजा दिया गया है। सोमवार को लोग मंदिरों की साफ सफाई में लगे रहे। व्रत-पूजन सामग्री खरीदने के लिए बाजार में भी ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। चैत्र नवरात्र मंगलवार से शुरू हो रहे हैं। चैत्र नवरात्र मंगलवार से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में शहर के प्रमुख मंदिरों में तैयारियों शुरू हो गई हैं। मंदिरों में रंगाई, पुताई, लाइटिंग, साज सज्जा समेत

विभिन्न तैयारियां जोरों पर हैं। सोमवार को में लगे रहे। रविवार को अवकाश होने की खरीदने के लिए बाजार में भी बड़ी संख्या उमड़ी शहर के लाल बाग स्थिति काली अधिक भीड़ उमड़ती है। ऐसे में मंदिर में बैरिकेडिंग लगाने का काम किया जा रहा साफ सफाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त पर बैरिकेडिंग का कार्य सोमवार से होगा। महाराज ने बताया कि तैयारियां पूरी कर अन्य मंदिरों मनोकामना मंदिर, दुर्गा मंदिर, मंदिर ढाब वाला मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों है।मंदिरों के बाहर फल, फूल-मालाओं की के खेल खिलौनों की दुकानें भी सजने लगीं की चुनरी, श्रृंगार, हवन सामग्री, पूजा



सामग्री के लिए गुरहट्टी चौराहा, लाइनपार, नवीन नगर, हरथला आदि बाजार में दुकानें सजी हुई हैं।नव संवत्सर पर काली मंदिर में जलेंगे 11 सौ दीये -काली माता मंदिर के महंत ने बताया की शनिवार को नव संवत्सर है। इस अवसर पर मंदिर में 11 सौ दीप जलाकर मंदिर को सजाया जाएगा। वहीं शाम को सात बजे से महा आरती का आयोजन होगा। बसौड़ा मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़- कपूर कंपनी स्थित हुल्का देवी महारानी मंदिर में चल रहे बसौड़ा मेले में रविवार को भी श्रद्धालुओं

मुरादाबाद न्यायालय के अधीन होंगे। की भीड़ उमड़ी। महंत बीएन गोस्वामी ने सभी भक्तों का प्रसाद चढ़ाया और आशीर्वाद दिया।

### साफ और सीधा निर्देश: सड़क पर नहीं अदा होगी ईद की नजाम, न कोई नई परंपरा भी करें शुरू; व्यवस्था चाक चौबंद

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ईद की नमाज की तैयारियों को लेकर डीएम रमेश रंजन, एसएसपी सौरभ दीक्षित ने संयुक्त रूप से ईदगाह व गांधी पार्क मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। साफ कहा कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं करें। उन्होंने ईद



के मौके पर बिजली, पानी की आपूर्ति सुचारू रखने के साथ साफ-सफाई कराए जाने के निर्देश दिए। डीएम एसएसपी ने ईदगाह स्थल का निरीक्षण किया नगर निगम, बिजली विभाग के अफसरों को निर्देश दिए। डीएम रमेश रंजन एवं एसएसपी सौरभ दीक्षित ने मुस्लिम

धर्मगुरुओं के साथ थाना उत्तर प्रांगण में बैठक की। डीएम रमेश रंजन ने ईद उल फित्र की धर्मगुरूओं को मुबारकबाद देते हुए कहा जिस प्रकार विगत वर्षों में आपसी भाईचारे से त्योहार को मनाते आ रहे हैं। उसी प्रकार से गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने का काम करें। सभी धर्मों के त्योहारों का एक ही मकसद होता है कि दूसरों की भावनाओं को आहत किये बिना हर्षों छास के साथ त्यौहार मनाएं। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों का प्रचार नहीं करें उन्होंने कहा कि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी सड़कों पर नमाज अदा नहीं करें।त्योहारों को पारम्परिक ढंग से मनाएं। किसी नई परंपरा का आरंभ न किया जाए। उन्होने नगर निगम,पालिका एवं पंचायत के ईओ से कहा कि त्यौहारों पर बिजली,पानी की आपूर्ति सुचारू करने के साथ साफ सफाई दुरुस्त रखने के आदेश दिए। नमाजियों के जाने वाले मार्गों के गड्ढे भरने के निर्देश दिए ईदगाह कमेटी के सचिव इसरार अहमद व धर्मगुरुओं के साथ ईदगाह, इस्लामियां ग्राउंड, गांधीपार्क मैदान का निरीक्षण किया। यहां जो खामी दिखाई दी उसे सुधारने के नगर आयुक्त एवं उनकी टीम को निर्देश दिए। नमाज के दौरान आवारा पशु न आने पाए इसके लिए सुबह से टीमें तैनात की जाए। मुस्लिम समाज की मांग पर अपर नगर आयुक्त ने नगला बरी चौराहा से नैनी ग्लास व बश्शन हॉस्पीटल तक सर्विस रोड पर खुले मैन होल ढंकवाने के साथ गड्ढों को भरवाने के आदेश दिए। एसएसपी सौरभ दीक्षित ने कहा कि पुलिस मुस्तैद रहेगी। इस दौरान एडीएम अभिषेक कुमार सिंह,एक्सईएन उदयवीर सिंह,एसडीएम व अपर नगर आयुक्त अब्बास हसन नकवी,ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कृति राज, नगर मजिस्ट्रेट राजेंद्र कुमार,एसपी सिटी सर्वेश मिश्र,व सीओ सिटी हिमांशु गौरव हिकमत उल्लाखां, मुफ्ती कासिम रजी, मौलाना आमीन अख्तर,मौलाना तनवीर उल कादरी, मुफ्ती हुजैफा शामिल थे।

## निर्वाचन संबंधी सभी तैयारियो को समय पर पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन दे:-जिला निर्वाचन

क्यूँ न लिखुँ सच सिंगरौली - अग्नि प्रबंधन की मजबूती तथा भवन निर्माण नियम विपरीत बनाई गई ईमारतो पर अनुशानात्मक कार्यवाही करे-कलेक्टर सिंगरौली निर्माण निमय अनुपालन से बने भवनो की जॉच करने। तथा निर्वाचन कार्य में सलग्न अधिकारी कर्मचारियो को सौपे गये दायित्वो का पूरी गंभीरता से निवर्हन कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे उक्त आशय के निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्रशेखर शुक्ला के द्वारा संबंधित अधिकारियो को दिया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान लोकसभा निर्वाचन के विभिन्न दायित्वों के संबंध में निर्देश देते हुये उपस्थित सेक्टर अधिकारियो निर्देष दिये कि अपने अपने क्षेत्रों के मतदान केन्द्रो का नियमित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि मतदान दिवस के पहले हर महत्वपूर्ण तैयारी पूरी कर ले। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रो में गर्मी को देखते हुये छाया, पेयजल विद्युत व्यवस्था का उचित प्रबंध करले। उन्होने निर्देश दिये कि मतदान केन्द्र पर आने वाले बुजुर्ग, दिव्यांग तथा बिना अनुमति न आयोजित किये महिला मतदाताओं के लिए विशेंष व्यवस्थाओं के साथ साथ मतदान केन्द्रो में शौचालय तथा

स्वच्छता का विशेष ध्यान रखे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने

निर्देश दिये कि मतदान केन्द्रो

में मतदान दल में सलग्न

अधिकारियो कर्मचारियो के



कराये। तथा सभी उपखण्ड अधिकारियों को इस आशय के भी निर्देश दिये कि अपने अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों की पूर्ण व्यवस्थाओ से संबंधित जानकारियां एवं अंतिम रिपोर्ट 10 अप्रैल को आयोजित बैठक के दौरान दिया जाना सुनिश्चित

उन्होंने सीएम हेल्प लाईन के संबंध में भी इस आशय के निर्देश दिये कि विभागीय अधिकारी लंबित शिकायतो का निराकरण निर्धारित समय सीमा के अंदर संतुष्टि पूर्वक किया जाना सुनिश्चित करे। उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये कि कोई भी सर्वजनिक सभा रैली जूलूस जाये। इस पर कड़ी निगरानी रखे। उन्होंने आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रो एवं शहरी क्षेत्र में स्थित ग्रामो में अवैध रूप से मादक पदार्थी की बिक्री न हो इसके लिए गहना पूर्वक दल जॉच करे।

बैठक के दौरान नगर निगम रहने खाने की उचित व्यवस्था आयुक्त को निर्देश दिये कि ऐसे

भवन स्वामी जिन्होंने भवन नियमो का पालन न किया हो तथा अपने भवन का निर्माण नियम विरूद्ध कराया है तथा ऐसे भवन स्वामी जिनके द्वारा बिल्डिंग परमीशन ली गई है किंतु भवन का निर्माण उपरोक्त परमीशन के विरूद्ध अपने भवन का निर्माण कराया गया है ऐसे भवन स्वामियो को चिंन्हित कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करे। कलेक्टर ने कि विगत दिवस शहर में घटित अग्नि दुर्घटना के संबंध में अग्नि प्रबंधन से संबंधित अधिकारियो कर्मचारियो को व्यवस्था में मजबूती तथा अकस्मिक रूप से घटित होने वाली दुर्घटनो को दृष्टिगत रखते हुये त्वारित कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये। बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेन्द्र सिंह नागेश, अपर कलेक्टर पी.के सेन गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर संजीव पाण्डेय, नगर निगम आयुक्त डी.के शर्मा, डिप्टी कलेक्टर माइकेल तिर्की, नंदन तिवारी, सौरभ मिश्रा सहित जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

#### ऑन लाईन क्वीज द्वितीय चरण के विजेताओ को जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया सम्मनित

क्यूँ न लिखूँ सच

सिंगरौली - लोकसभा निर्वाचन के लिए सिंगरौली जिले में 19 अप्रैल को मतदान कराया जायेगा। मतदान दिवस पर शत प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे इसके लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्दशेखर शुक्ला के मार्गदर्शन मे तथा नोडल अधिकारी स्वीप गजेन्द्र सिंह नागेश के नेतृत्व में जिले भर मे स्वीप गतिविधियो के द्वारा अनेक प्रकार की गतिविधियां आयोजित कर मतदताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी ऋम में जिले में मतदताओं

को जागरूकर करने के लिए तीन चरणो में ऑन लाईन क्वीज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें किसी भी आयु वर्ग के नगारिक भाग ले सकते है। दूसरं चरण में ऑन लाईन क्वीज प्रतियोगिता आयोजन आयोजन 3 अप्रैल के



अधिकारी ने कहा कि आप सब मिलकर युवाओ मिलकर युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करे ताकि आगामी मतदान दिवस पर अपने जिले में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेन्द्र सिंह नागेश, अपर कलेक्टर पी.के सेन गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर संजीव कुमार पाण्डेय, नगर निगम आयुक्त डी.के शर्मा, डिप्टी कलेक्टर नंदन तिवारी उपस्थित रहे।

### निर्वाचन दल से संलग्न कम्युनिकेशन दल के सदस्यो का प्रशिक्षण आयोजित

अधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र

देकर कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर जिला निर्वाचन

क्यूँ न लिखूँ सच

सिंगरौली - लोकसभा निर्वाचन- 2024 के अंतर्गत निर्वाचन संबंधी सूचनाओं के सम्प्रेषण रिटर्निंग अधिकारी स्तर पर गठित कम्युनिकेशन कक्ष से संपर्क एवं निर्वाचन अधिकारी स्तर से निर्वाचन आयोग तक विभिन्न सूचनाओं के सम्प्रेषण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर पर

कम्युनिकेशन दल में संलग्न कर्मचारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ। यह प्रशिक्षण कम्युनिकेशन कक्ष प्रभारी द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से दिया गया। प्रशिक्षण में निर्वाचन आयोग से प्राप्त सूचनाओं को जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराना, रिटर्निंग अधिकारी स्तर तक सूचनाओं का प्रेषण, रिटर्निंग अधिकारी स्तर पर सूचनाओं का सम्प्रेषण एवं प्राप्त सूचनाओं का दल



प्रभारी के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी तक प्रेषण के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर विधानसभा वार तकनीकी कार्य सहित कम्युनिकेशन दल में लगे कर्मचारी मौजूद थे। प्रशिक्षण के दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से बिंदुवार प्रस्तुतीकरण किया गया।

#### ईव्हीएम मशीनो का प्रथम सप्लीमेंटी रेण्डमाईजेशन किया गया क्यूँ न लिखूँ सच

सिंगरौली - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला के अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में ईव्हीएम मशीनो का प्रथम सप्लीमेंटी रेण्डमाईजेशन किया गया। जिले के तीनो विधानसभा क्षेत्रो में लगने वाली बीयू तथा सीयू का रेण्डमाईजेशन किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद झा, एसडीएम सृजन बर्मा, राजेश



शुक्ला, सुरेश जाधव सहित राजनैतिक दलो के प्रतिनिधि उपस्थित

प्रिय सुधि पाठको आप अपना यहाँ शुभकामना सन्देश (Birthday, anniversary, any kind of message) कम कीमत में विज्ञापन छपवाए सम्पर्क करे- 9027776991

#### संक्षिप्त समाचार

IHRCCO भारत के राष्ट्रीय प्रभारी मीडिया सेल मान.मनोज वर्मा जी( स्वतंत्र )11 अप्रैल को छत्तीसगढ दौरे पर रहेंगे कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल

नई दिल्ली -अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार) एवं अपराध नियंत्रण संगठन भारत के राष्ट्रीय प्रभारी मीडिया सेल माननीय मनोज वर्मा जी ( स्वतंत्र ) तीन दिवसीय अपने छत्तीसगढ को आ रहे है

दौरे पर 11 अप्रैल मिली सूत्रों के (स्वतंत्र) को लेकर पूरे दौरा कर रहे स्वतंत्र जी IHRCCO राष्ट्रीय प्रभार्र

अनुसार श्री अपने कार्यों देश भर में को जब से है तभी से भारत के

सभी राज्यों में संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी तपस्या एवं मेहनत करने में लग गए है बता दें श्री स्वतंत्र जी इस समय महाराष्ट्र के कई जिलों का दौरा कर संगठन को मजबुत करने पर जोर दे रहे है और नियुक्तियां के पहले सदस्यता अभियान चला रहे है इसी कड़ी में 11 अप्रैल को मुंबई से छत्तीसगढ़ अपने 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे है इन 3 दिनों में श्री स्वतंत्र जी रायपुर के साथ साथ कई जिलों का दौरा भी करेंगे , साथ ही साथ 11 अप्रैल को माता कुंती देवी माडिया हाउस मोवा कार्यालय में छत्तीसगढ़ पत्रकार जनकल्याण समिति के नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और अहम मुद्दों पर चर्चा कर सभी पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे । उसके बाद 12 अप्रैल से कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे , जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मानपुर मोहला एवं कांकेर के कार्यक्रमों में शामिल होंगे ।

#### बदल रही काशी: एक करोड़ की ट्रेस स्कीमर मशीन से होगी कुंडों और तालाबों की होगी सफाई, जानें क्या है खासियत

वाराणसी में कुंडों, तालाबों की सफाई अब खास मशीन से की जाएगी। ये मशीन जलकुंभी बटोरकर पीछे फेंक देती है। जिसे ट्रॉली में जमा किया जाता है। इसके बाद ट्रक के माध्यम से ट्रॉली को करसड़ा कूड़ा निस्तारण केंद्र भेज दिया जाता हैशहर के कुंडों, तालाबों और नदी में जलकुंभी की सफाई अब ट्रेस स्कीमर मशीन से होगी। अब तक जलकुंभी की सफाई मैनुअल कराई जाती थी। दवा डालने से जल में रहने वाले जीवों पर असर पड़ता था। इसे देखते हुए नगर निगम ने एक मशीन मंगाकर सफाई शुरू कराई है। जरूरत पड़ी तो और मशीनें खरीदी जाएगी। जलकुंभी साफ करने वाली मशीन ट्रेस स्कीमर बड़ी तेजी से काम करती है। जलकुंभी बटोरकर पीछे फेंक देती है। जिसे ट्रॉली में जमा किया जाता है। इसके बाद ट्रक के माध्यम से ट्रॉली को करसड़ा कूड़ा निस्तारण केंद्र भेज दिया जाता है। खास बात है कि यह मशीन 2 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से 7 फीट चौड़ाई पर जलकुंभी निकालती है। नगर निगम ने बारिश से पूर्व वरुणा में इस मशीन को उतारा है। यह मशीन रोजाना 8 घंटे तक जलकुंभी की सफाई करेगी। नगर निगम क्षेत्र में 63 कुंड और तालाब हैं। जहां पर हर साल जलकुंभी की समस्या होती है। इसे हर बार सफाई कर्मचारियों को लगाकर निकलवाना पड़ता है। जलकुंभी निकालने के बाद भी दोबारा जलकुंभी की समस्या बनी रहती है। तालाबों की सफाई के लिए निगम स्थानीय संसाधन की मदद हर साल लेता था, लेकिन अब मशीन आने से स्थानीय संसाधन की मदद नहीं लेनी होगी। आने वाले दिनों में अन्य कुंड तालाब में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कहते हैं अधिकारी- जलकुंभी बड़ी समस्या है। एक मशीन मंगाकर कुंड और तालाबों की सफाई शुरू कराई है। जरूरत पड़ी तो और मशीनें खरीदी जाएगी। - अक्षत वर्मा, नगर आयुक्त

#### बिना लाईसेंस दो रेस्टोरेंट परोस रहे थे शराब, गिरफ्तार किए गए प्रबंधक, आबकारी विभाग ने की छापेमारी

लखनऊ के चिकी चिक रेस्टोरेंट तथा द ग्रिल चिल रेस्टोरेंट में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान पाया गया कि बार लाइसेंस के बिना रेस्टोरेंट में शराब पिलाई जा रही थी।लोकसभा चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग की टीम अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी ऋम में रविवार

रात में अलीगंज सेक्टर सी स्थित दो रेस्टोरेंट में ग्रिल चिल रेस्टोरेंट में बिना बार लाईसेंस के दोनों रेस्टोरेंटों के प्रबंधकों व मालिकों के मिले प्रबंधकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया रेस्टोरेंट के प्रबंधक ऋषि खन्ना ने पूछताछ में में रहने वाले रोविंद्र सिंह के निर्देश पर अधिक कराया जा रहा था।आबकारी विभाग ने रेस्टोरेंट तथा बियर के 10 खाली केन बरामद किए।



टीम ने छापा मारा। इस दौरान चिकी चिक रेस्टोरेंट और द शराब परोसा जा रहा था। आबकारी विभाग की टीम ने खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मौके पर है।745 आजाद महल, सदर कैंट निवासी चिकी चिक बताया कि रेस्टोरेंट के मालिक सी 19 सेक्टर जी अलीगंज धनार्जन के उद्देश्य से रेस्टोरेंट परिसर के भीतर मदिरापान से विदेशी मदिरा की एक भरी हुई व पांच खाली बोतल रेस्टोरेंट मालिक को मौके पर बुलाया गया लेकिन वह

फरार हो गया।इसके बाद पुलिस ने फर्जीवाड़े के आरोप में प्रबंधक ऋषि खन्ना को गिरफ्तार कर लिया।वहीं, द ग्रिल चिल रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई तो यहां भी अवैध ढंग से मदिरा पान कराया जा रहा था। इस रेस्टोरेंट के प्रबंधक भटपुरा ग्राम सिधौली जनपद शाहजहांपुर निवासी सेजल गुप्ता से पूछताछ की गई। सेजल गुप्ता ने बताया कि रेस्टोरेंट के मालिक मुंशीपुलिया निवासी प्रियंक श्रीवास्तव रुपये कमाने की लालच में फर्जीवाड़ा कर रहा था। रेस्टोरेंट से विदेशी मदिरा की 6 खाली बोतल तथा बियर के 10 उपयोग की गई केन बरामद की गई। आबकारी विभाग ने रेस्टोरेंट मालिक को बुलाया, लेकिन वह नहीं पहुंचा। इसके बाद प्रबंधक सेजल गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जिला आबकारी अधिकारी का कहना है कि शराब के अवैध अड्डों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

### महाकाल के दर्शन करना है तो वह ही करें, रील न बनाएं, नई गाइडलाइन जारी

विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालु दर्शन की अभिलाषा लेकर आते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो रील बनाते हैं और प्रतिबंधित क्षेत्र में फोटोग्राफी करते नजर आते हैं। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के इरादे से महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने कुछ दिशानिर्देश बनाए हैं। इनका सख्ती



से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। यदि कोई श्रद्धालु मंदिर में रील बनाता दिखाई दिया तो पहले समझाइश दी जाएगी। यदि फिर भी नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के नवागत प्रशासक मृणाल मीना ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही श्री महाकालेश्वर

मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब उन्होंने मंदिर परिसर में रील बनाने पर पाबंदी लगा दी है। मीना का कहना है कि हम चाहते हैं कि मंदिर में जिस भावना के साथ श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो। श्रद्धालुओं को अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। इसके बाद भी श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। अब ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। कई श्रद्धालु इन नियमों का उल्लंघन करते हैं। ऐसा करने पर यदि कोई सुरक्षाकर्मी रोकता है तो उसके साथ मारपीट तक करते हैं। ऐसे लोगों को पहले समझाइश दी जाएगी। अगर नहीं मानते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। रील बनाने पर पहले भी हुआ था बवाल- महाकाल मंदिर में फिल्मी गानों पर डांस का वीडियो बनाने के मामले पहले भी सामने आए हैं। एक युवती ने गर्भगृह में बाबा महाकाल का अभिषेक करते हुए रील बनाई थी। एक युवती मंदिर परिसर में नाचते नजर आई थी। महाकाल मंदिर में वीडियो शूट करने पर पुजारियों ने आपत्ति भी जताई थी। उनका कहना है कि फिल्मी गाने-डांस के वीडियो को मंदिर से जोड़कर बनाना आपत्तिजनक है। दो दिन पहले सुरक्षाकर्मी के साथ हुई थी मारपीट- श्री महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षाकर्मी शिवानी पुष्पद, संध्या प्रजापति, संगीता चांगेसिया ने श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्र में वीडियो रील बनाने पर चार से पांच महिला श्रद्धालु और लड़िकयों को मना किया था। इस पर युवितयों ने सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट तक की थी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। सुरक्षकर्मी शिवानी पुष्पद की शिकायत पर थाना महाकाल में अभियुक्त नागदा निवासी पलक चौहान, परी चौहान और अन्य के विरुद्ध भादंसं की धारा 323, 294, 506 और 34 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया था।

### कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारीगण के साथ समीक्षा बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश

क्यूँ न लिखूँ सच एटा-आगामी लोकसभी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए महोदया आयुक्त अलीगढ,मण्डल अलीगढ श्रीमती चैत्रा वी व पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ, परिक्षेत्र अलीगढ श्री शलभ माथुर द्वारा वल्नरेविल, क्रिटिकल, संवेदनशील मतदान केन्द्रों केन्द्रीय पुलिस बल/पुलिस बल के ठहरने के स्थान तथा मतगणना स्थल/स्ट्रान्ग रुम का किया गया निरीक्षण, तथा कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारीगण के साथ समीक्षा बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश । आज दिनांक-08.04.2024 को आयुक्त महोदया श्रीमती चैत्रा वी, अलीगढ,मण्डल अलीगढ व महानिरीक्षक अलीगढ,परिक्षेत्र अलीगढ श्री शलभ माथुर द्वारा वल्नरेविल, क्रिटिकल संवेदनशील मतदान केन्द्र 1. प्राथमिक विद्यालय पुठिया 2. उच्च प्राथमिक विद्यालय भदुआ, मण्डी समिति एटा स्थित मतगणना स्थल , तथा अर्धसैनिक बल / पुलिस बल के ठहरने के स्थान सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक

लिया गया जायजा। निरीक्षण के बाद आयुक्ता महोदया द्वारा थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगला धनी में आमजन से की वार्ता कर निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने हेतु की गयी अपील। आमजन से वार्ता के उपरांत, सेंट पाल्स स्कूल में चुनाव कर्मियों को मतदान कराने हेतु दी जा रही ट्रेनिंग का जायजा लेकर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तत्पश्चात कलेक्ट्रेट सभागार में जनपदीय पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव से संबंधित गोष्ठी आयोजित कर लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्ण ढंग से कराये जाने व चुनाव में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही करने हेतु



आवश्यक दिशा निर्देश। इस मौके पर जिलाधिकारी एटा श्री प्रेम रंजन सिंह,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा श्री राजेश कुमार सिहं,अपर पुलिस अधीक्षक एटा श्री धनन्जय सिंह कुशवाहा,एसडीएस सदर सुश्री विमल,क्षेत्राधिकारी नगर श्री विक्रान्त द्विवेदी व अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद

हिंदी अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र

## राष्ट्रको स्वस्थ रखने में एवं राष्ट्र की प्रगति में वाल्मीकि समाज की अहम भूमिका अरविंद झंझोट

राकेश गुप्ता

शामली - मोहल्ला पंसारियांन कॉलोनी जनपद शामली में वाल्मीकि समाज की एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता नंदू प्रसाद वाल्मीकि ने की संचालन मोहम्मद गयूर अली ने किया बैठक में राष्ट्रीय वाल्मीकि समाज प्रतिनिधि मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद झंझोट शामिल हुए संगठन के लोगों ने सर्वप्रथम सब लोगों ने मिलकर त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि को माला अर्पण की भगवान वाल्मीकि का दीपक जलाकर पूजा अर्चना की उसके पश्चात संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद झंझोट ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्र को स्वस्थ रखने में एवं राष्ट्र की प्रगति में वाल्मीकि समाज की अहम भूमिका है परंतु वाल्मीकि समाज विकास की दौड़ में बहुत पीछे है वाल्मीकि समाज शिक्षा में आर्थिक व्यवस्था में बेरोजगारी में और गरीबी में रहकर भी राष्ट्र के नव निर्माण के लिए निरंतर अपनी अहम वर्गों की समस्याओं का भूमिका निभा रहा है परंतु सरकार द्वारा वाल्मीकि समाज की समस्याओं पर सरकार का

नहीं बनाया वाल्मीकि समाज के अन्य को मजबूत संगठन एवं राष्ट्रीय बाल्मीकि समाज प्रतिनिधि मंच आदि ने संविदा कर्मचारियों को एवं ठेके व्यवस्था के कर्मचारियों को एवं समस्त विभागों में अस्थाई सफाई कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार को जिला प्रशासन के माध्यम से केई दर्जन बार जनहित समस्याओं का समाधान करने के लिए ज्ञापन भेजे गए परंतु इन गरीब कमजोर समाधान नहीं किया गया वाल्मीकि समाज एवं सभी गरीब वर्गों को अपने हक

लिए निरंतर संगठन जन जागरण अभियान चलाकर जागरूक करने का प्रयास कर रहा है अरविंद झंझोट ने संगठन को मजबूत करने के लिए एवं इस अभियान को कामयाब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल होने के लिए अपील की उक्त अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद झंझोट जिला संयोजक नंदू प्रसाद वाल्मीकि प्रमोद कश्यप मोहम्मद आलम दिन मोहम्मद गयूर अली मोहम्मद रिजवान शोएब काजी मनीष वाल्मीकि राजू वाल्मीकि मोनू वाल्मीकि विनोद पहीवाल सुमित वाल्मीकि अरविंद

### मनोज वर्मा( स्वतंत्र) ने दुर्जन प्रसाद वर्मा ( दुर्गेश ) और देवनाथ वर्मा को छत्तीसगढ़ पत्रकार जनकल्याण समिति का डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया

अधिकारों को प्राप्त करने के

पत्रकार जनकल्याण समिति के संस्थापक / अध्यक्ष मनोज वर्मा जी ने( स्वतंत्र ) ने दुर्जन प्रसाद वर्मा ( दुर्गेश ) एवं देवनाथ वर्मा (भाटापारा दतरंगी) को छत्तीसगढ़ पत्रकार जनकल्याण समिति के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती भामा साहू जी एवं प्रदेशाध्यक्ष जनरल कमेटी प्रकाश बहपकड़िया जी की अनुशंसा पर डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया गया है इनकी नियुक्ति पर संगठन के ष्ट. श्व. ह्र. मिथलेश वर्मा कोषाध्यक्ष श्रीमती पार्वती वर्मा,कानूनी सलाहकार श्रीमती वर्षा जैन,की अनुशंसा पर किया गया है दोनो एक्टिव सदस्यों को नियुक्त किए जाने पर मीडिया सेल के साथ साथ संगठन को भी मजबूती मिलेगी, श्री मनोज वर्मा जी(स्वतंत्र) ने कहा की दुर्जन जी एवं देवनाथ जी ने अपने अपने कार्यक्षेत्रों में एक अलग पहचान बनाई है और कामयाब भी हुए दुर्गेश जी एवं देवनाथ जी को उनके सरल स्वभाव एवं

संगठनात्मक शैली को देखते हुए

क्यूँ न लिखूँ सच

रायपुर छत्तीसगढ़ -छत्तीसगढ़

दोनो की इस पद पर नियुक्ति किया गया है और ये दोनो ही अपने कामों को बड़ी ही गंभीरता से करते है इतनी कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले दोनो पाधिकारियों को बड़ी जिमेदारी से काम करेंगे ऐसा संगठन विश्वाश करता है। संगठन के संस्थापक स्वतंत्र जी एवं संगठन के साथ साथ प्रदेश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। बधाई देने वालों में संगठन के ( चेयरमैन ) त्रिलोचन सिंह सलूजा, (सी ई ओ ) मिथलेश कुमार वर्मा, (एम. डी.) भामा साहू, (प्रदेशाध्यक्ष महिला विंग) श्रीमती भगवती शर्मा (युवा

कोषाध्यक्ष श्रीमती पार्वती वर्मा, (कानूनी सलाहकार) श्रीमती वर्षा जैन,श्रीमती ( प्रदेश सह प्रभारी) रूपेश कश्यप रंजना सिंह चौहान जिला महासचिव( महिला सेल) ,सुनील कुमार साहू प्रदेशाध्यक्ष (प्रिंट मीडिया,) रविंद्र देवांगन प्रदेश उपाध्यक्ष ( युवा विंग ) देवनाथ वर्मा कार्यकारिणी सदस्य,एवं संगठन एवं राजू कुमार सूर्यवंशी जिलाध्यक्ष जनरल कमेटी जांजगीर, प्रदेश भर से चंद्र शेखर जी को प्रदेशाध्यक्ष (डिजिटल मीडिया सेल ) बनाएं जाने पर सभी सदस्यों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं दीं है। विंग प्रदेशाध्यक्ष ) राज साहू

कारतूस तथा एक कार सहित किए गए गिरफ्तार,पूर्व में भी

#### टूटने की कगार पर खड़े दो परिवारों को समझाकर फिर से एक साथ रहने के लिए सहमत किया

क्यूँ न लिखूँ सच एटा-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार सिंह के निर्देशन में महिला थाना कैंपस नारी उत्थान केंद्र भवन में आज दिनांक 8/4/2024 को टूटने की कगार पर खड़े दो परिवारों को समझाकर फिर से एक साथ रहने के लिए सहमत किया गया ।1. वादी श्रीमती प्रतीक्षा पुत्री दलबीर सिंह निवासी जीसुखपुरा थाना बागवाला

विद्यालय का निरीक्षण कर



जिला एटा प्रतिवादी रिंकू शाक्य पुत्र ठाकुर दास निवासी जीसुखपुरा थाना बागवाला जिला एटा

2. वादी किनका देवी पुत्री सोरन सिंह निवासी फगनौल थाना जैथरा जिला एटा प्रतिवादी जितन पुत्र वीरेंद्र निवासी गाहल थाना सकरौली जिला एटा।

आपसी मतभेद के कारण परिवार परामर्श केंद्र में पत्रावली

प्रचलित थी , दोनों परिवारों को परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग कर समझाया गया तथा अपनी पिछली गलतियों को मानते हुए साथ रहने के लिए राजी किया गयाद्य आज की बैठक में उप निरीक्षक मंजीत सिंह, काउंसलर नीलम गुप्ता बृजबाला वशिष्ठ,पुलिस स्टाफ से महिला कांस्टेबल रजनी, महिला कांस्टेबल पूजा मौजूद रहे ।

<mark>आप अपना किसी भी प्रकार का</mark> विज्ञापन प्रकाशित कराये जैसे नीलामी सूचना, बेदखली सूचना,ऋय विऋय सूचना आदि, वो भी कम <mark>कीमत में संपर्क करे - 927776991</mark>

#### संक्षिप्त समाचार

#### बाढ़ क्षेत्र में दोयम दर्जे के ईट से बनाया जा रहा पुलिया

क्यूँ न लिखूँ सच -प्रेमचंद जायसवाल

श्रावस्ती- ग्राम प्रधान द्वारा कराया जा रहा मानक बिहीन पुलिया

निर्माण श्रावस्ती विकास खंड जमुनहा के अंतर्गत ग्राम पंचायत वीरपुर लौकिहा इस्लाम के घर के पास वीरपुर से लौकिया जाने वाले मार्ग पर पुलिया निर्माण किया जा रहा है जिसमें दयम



दर्जे ईट का प्रयोग किया जा रहा है काम सीमेंट नदी रेत का बालू से जोड़ाई की जा रही है जो राप्ती नदी के निकट है और बाढ़ आने पर पुलिया तत्काल धराशाई हो जाएगी इस संबंध में गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य जय मंगल पाठक ने जिलाधिकारी श्रावस्ती से जांच कर कर पुलिया के निर्माण में सुचारू से पक्की ईट से बनवाने की मांग खिलाफ कार्यवाही की भी मांग किया

#### मतदान से पहले हो सड़क की मरम्मत जनता की मांग बरगदही

चमर पुरवा पिपरहवा मार्ग

क्यूँ न लिखूँ सच -अरविन्द कुमार यादव श्रावस्ती- श्रावस्ती जनपद के विकास क्षेत्र जमुनहा के नानपारा गिरंट मार्ग से चमारनपुरवा गांव होते हुए बभनपुरवा -बरगदही पिपरहवा तक पांच किलोमीटर सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई जिसके चलते सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति परेशान हो उठे हैं। इस मार्ग के बदहाल होने से दर्जनों गांव के सैकड़ों लोग इस उखड़ खाबड़ गड्ढे में तब्दील सड़क पर चलने के लिए बाध्य हो रहे हैं। यहां तक लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है और बभनपुरवा -बरगदही प्राथमिक विद्यालय पोलिंग बूथ पर पहुंचने वाले आम जनता से लेकर जिले के मतदान कर्मी इसी बदहाल मार्ग से होकर मतदान कराने से लेकर मतदान करने पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं। क्षेत्र के लोगों लोकसभा चुनाव से पहले इस सड़क की मरम्मत कार्य कराने मांग श्रावस्ती जिला अधिकारी से की है। यहां तक बरगदही प्राथमिक विद्यालय पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए एक और मार्ग रिसियामिर्जापुर मार्ग से कतकही चौराहे से बादलपुरवा से होते हुए बरगदही प्राथमिक विद्यालय पोलिंग बूथ तक पहुंचता है वह भी जगेह जगेह गड्ढे में <mark>तब्दील हो गया है।आम जनता की मांग है कि दोनों सड़कों को</mark> पुनः पिच पेंटिंग कराया जाये ।

#### 03 शातिर अंतर्जनपदीय लुटेरे, 03 अवैध तमंचा व 07 जिन्दा कारतूस तथा एक कार सहित किए गए गिरफ्तार

क्यूँ न लिखूँ सच

एटा-थाना मिरहची पुलिस को मिली बडी सफलता, थाना मिरहची पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान लूट की योजना बनाते, 03 शातिर अंतर्जनपदीय लुटेरे, 03 अवैध तमंचा व 07 जिन्दा

अपराधिक घटनाओं को दे चुके हैं अंजाम। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन



सदर के पर्यवेक्षण में अपराध व अपराधियो पर नियंत्रण हेत् चलाये जा रहे तलाश व दिबश सहित, वाँछित अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान के तहत थाना मिरहची पुलिस द्वारा दौराने चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी व लूट की योजना बनाते 03 शातिर लुटेरों को तीन अवैध तमंचा व 07 जिन्दा कारतूस ( 315 बोर ) तथा एक कार सहित कुटैना नहर के पास टूटी सडक से गिरफ्तार किया गया है।गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मिरहची पर सुसगंत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर थानास्तर से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की

की हैवानियत; दिया था ये लालच

अभिनेत्री से दरिंदगी: पीड़ित ने बयां किया

दर्द, मुंबई समेत कई शहरों के होटलों में

कानपुर निवासी दुष्कर्म पीड़िता अभिनेत्री ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए हैं। उधर, नजीराबाद पुलिस ने पीड़िता को नोटिस दिया है। और कहा कि बताए घटनास्थल चलने का वक्त है। बड़े

एलबम में काम दिलाने का झांसा देकर अभिनेत्री से दुष्कर्म किया गया था लिखनऊ की इंटरटेनमेंट

व प्रोडक्शन कंपनी के अध्यक्ष समेत पांच लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली शहर की

अभिनेत्री ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए। बयान के दौरान पीड़िता ने अपने दर्द को बयां करते

हुए आरोपों को दोहराया। बयान दर्ज होने के साथ ही पुलिस ने पीड़ित अभिनेत्री को सीआरपीसी

की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया है। इसमें पीड़िता से मामले की जांच के लिए हैदराबाद

मुंबई और गुहावटी स्थित घटनास्थलों पर चलने के समय देने के लिए कहा है। तीन दिन में नोटिस

का जवाब दिया जाना है, जिसके बाद पुलिस जांच के लिए अगला कदम उठाएगी। बता दें,

नजीराबाद निवासी कारोबारी की अभिनेत्री बेटी ने लखनऊ की साउथ सिटी गेट नंबर चार स्थित

लखनऊ पब्लिक स्कूल के पास रहने वाला हेमंत कुमार राय श्रेया इंटरटेनमेंट और प्रोडेक्शन

कंपनी का अध्यक्ष है। हेमंत कुमार पिछले साल उसके घर आए और तीन-चार एलबम में काम

करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही किसी बड़े स्टार के साथ एलबम लांच करने का वादा भी किया।

कहा कि इससे होने वाली कमाई दोनों लोग आधी-आधी बांट लेंगे। हेमंत की बातों में फंसकर वह

उनके साथ काम करने के लिए राजी हो गई। इसके बाद हेमंत और उसका एक-दूसरे के घर आना-

जाना हो गया। आरोप है कि शूटिंग के सिलसिले में कई बार हेमंत व उनकी टीम के साथ मुंबई भी

गई। नौ मई 2023 को होटल ताज पैलेस मुंबई में वह और हेमंत कुमार राय रुके थे। हेमंत ने उसे

शराब पीने के लिए कहा। आरोप है कि मना करने पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर

### शहतूत तोड़ने पर तालिबानी सजा: चीखती रही छात्रा, स्टील की स्केल बरसाते रहे गुरुजी... नहीं आई दया

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सोमवार को आत्मा हिलाने वाली खबर सामने आई। यहां पेड़ से मात्र एक शहतूत तोड़ लेने पर प्रधानाध्यापक ने चौथी का छात्रा को बेरहमी से पीटा। उसकी पीठ पर उकरे खूनी निशान प्रधानाध्यापक के बेरहमी की दास्तां बयां कर रहे हैं। छात्रा दर्द से छटपटाते

हुए फिर से गलती लगाती रही, प्रधानाध्यापक का वह उसे पीटते रहे। चौथी का छात्रा सजा दी। छात्रा गुरुजी स्टील की उन्हें जरा भी दया टूंडला थाना क्षेत्र गांव की है। गांव की 9 वर्षीय प्राथ मिक अनवारा में कक्षा



न करने की गुहार लेकि न दिल नहीं पसीजा। पेड़ से शहतूत प्रधानाध्यापक ने को तालिबानी स्केल बरसाते रहे। नहीं आई। घटना के नगला केसों निवासी राम नरेश बालिका कु. रौना विद्यालय चार की छात्रा है।

स्कूल परिसर में एक शहतूत का पेड़ लगा है। सुबह रौना ने पेड़ से एक शहतूत तोड़ लिया। इसे प्रधानाध्यापक सुभाष चंद्र ने देख लिया। इसी बात पर प्रधानाध्यापक का पारा चढ़ गया। उन्होंने टेबल में रखी स्टील की स्केल उठाई और छात्रा पर बरसानी शुरू कर दिए। प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग- कुछ देर तक तो छात्रा बर्दाश्त करती रही लेकिन जब सहनसीमा पार हो गई तो वह चीख पड़ी। उसके चीखने पर भी प्रधानाध्यापक को रहम न आई। वह उसे पीटते रहे। पिटाई से सहमी छात्रा घर पहुंची। उसने परिजन को पूरी बात बताई। परिजन ने ग्राम प्रधान को बात बताई। साथ ही थाने पहुंचकर शिकायत की। आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जांच करके करेंगे कार्रवाई- एबीएसए ज्योति पाठक ने कहा कि छात्रा को पीटने की जानकारी हुई है। घटना की जांच करके कार्रवाई की जाएगी। वहीं थाना प्रभारी अनुज कुमार राणा ने कहा कि घटना की अभी लिखित तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच करके

### वकीलों हुए भाजपा



क्यूँ न लिखूँ सच

जिला संयोजक श्री भुवन लाल साहू, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री हितेंद्र तिवारी, श्री ऋषि राज पीठवा श्री विनोद प्रधान, छत्तीसगढ़ पत्रकार जन कल्याण समिति की लीगल एडवाइजर वर्षा जैन भी उपस्थित रहीं भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ट का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आज प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर आदितोरियम में संपन्न हुआ। उक्त सम्मेलन में बिलासपुर, कांकेर ,दुर्ग इत्यादि प्रदेशभर के विभिन्न स्थानों से अधिवक्ता

रायपुर छत्तीसगढ़- रायपुर अरुण साव , राष्ट्रीय संगठन महा मंत्री श्री पवन साय एवम भा ज पा विधि प्रकोष्ट के प्रदेश अध्यक्ष श्री जय प्रकाश चंद्रवंशी जी ने लोकसभा चुनाव संबंधी मार्गदर्शन दिया. इस सम्मेलन मे लगभग 1000 अधिवक्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. इस कार्यक्रम में लोकसभा प्रत्याशियों को हो सकने वाली कठिनाइयों एवम विधि संबंधित प्रक्रिया की जानकारी दी गयी हितेंद्र तिवारी बृजेश पांडे मौजूद रहे रायपुर। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं, पहले

उपस्थित हुए. इस कार्यक्रम में चरण का मतदान भी बेहद मुख्य रूप से उप मुख्यमंत्री श्री करीब है। ऐसे में पार्टियों में दस-बदल का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बता दें कि आज हुए विधि प्रकोष्ठ के सम्मेलन में 200 अधिवक्ताओं ने भाजपा प्रवेश किया है। क्रछुक्क के राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री शिव प्रकाश ,उपमुख्यमंत्री और कानून मंत्री अरुण साव की उपस्थिति में विधि प्रकोष्ठ का सम्मेलन आयोजित किया गया था। भाजपा में शामिल हुए विधि प्रकोष्ठ के प्रत्येक सदस्य चुनाव के दौरान विपक्ष के हर बयान और हरकतों पर नजर रखेंगे। वहीं, विधि अनुरूप एक्शन लेंगे और जवाब भी देंगे।

#### पिलाकर उसे बेहोश करने के बाद दुष्कर्म किया। इस दौरान अश्लील वीडियो और फोटोग्राफ भी बना लिए। विरोध करने पर फोटो व वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा। परिवार के साथ हत्या की धमकी दी। आरोपी उसे शूटिंग की बात कहकर मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी समेत कई शहरों में ले जाकर होटलों में दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद एलबम में काम करने से इंकार करने पर हेमंत व उसके साथियों ने धमकी दी कि अगर हमारी बात नहीं मानोगी तो तस्वीर व वीडियो वायरल कर देंगे। मामले में नजीराबाद थाने में हेमंत कुमार राय, उसके साथी राजेश सिंह, जमील अहमद,. पी महेश, विशाल सरोज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। नजीराबाद थानाध्यक्ष कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बुधवार को पीड़ित अभिनेत्री के कोर्ट में कलम बंद बयान दर्ज कराए गए। इसमें अभिनेत्री ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों को दोहराने के साथ ही अपना दर्द बयां किया है। तीन दिन पहले पीड़ित अभिनेत्री को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी कर पूछा गया है कि जिन स्थानों व होटलों में वारदात को अंजाम दिया गया है। वहां चलने का वक्त बताएं, ताकि विवेचना टीम वहां जाकर जांच करने के साथ ही साक्ष्य जुटा सके।

शशि हॉस्पिटल द्वारा स्वास्थ्य केम्प लगाकर लोगो का किया परीक्षण एवं निशुल्क दवाओं का वितरण

हालांकि अभी तक पीड़ित अभिनेत्री ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है।

एटा-जैथरा - ग्राम पंचायत भाउपुरा के ग्राम जीवनावद मे शशि हॉस्पिटल द्वारा स्वास्थ्य केम्प का आयोजन रविवार को अलीगढ के डॉक्टर मनीष द्वारा किया स्वास्थ्य परीक्षण एवं लोगो को निशुल्क दवाओं का वितरण किया ज्यादा तर लोगो मे मौसमी बीमारियों का प्रकोप देखने को मिला, जिसमे सर्दी, जुखाम व मौसमी बुखार के लक्षण दिखाई दिये, जाँच परीक्षण कर लोगो मे मुफ्त दवाओं का वितरण किया गया। ज़ब हमारे संबाद दाता ने डॉक्टर संदीप राठौर से इन बीमारियों के बारे पूछा तो डॉक्टर ने बताया, कि इस समय मौसमी बीमारियों का ज्यादा प्रकोप होता है क्योंकि इस समय मौसम परिवर्तन के कारण लोगो मे सर्दी

जुखाम आम बात है, इसी समय

मौसमी बुखार भी लोगो मे केम्प मे डॉक्टर राहुल यादव,



बचने के लिए लोगो मे विशेष सतर्कता अपनानी होंगी, खानपान पर विशेष ध्यान देकर मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। इस समय सर्दी जुखाम व बुखार से बचने के लोगो को अपनी दिनचर्या मे सुबह को गुनगुना पानी पीने से एवं बर्फ व ठंडे पानी पीने से बचना ही इन बीमारियों से बचा जा सकता है। इन दिनों बाजारू कोल्ड ड्रिंक व आईस ऋीम से भी बचना होगा। इस स्वास्थ्य

डॉक्टर अलोक कुमार, डॉक्टर राजबाला यादव, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉश शेखर राठौर, डॉश भानु चौहान, एवं नर्सिंग स्टाफ शशि हॉस्पिटल ने अपना अपना सहयोग दिया।

दैनिक अखबार क्यूँ न लिखूँ सच को जिला एवं तहसील स्तर पर ब्योरो संवाददाता व विज्ञापन प्रतिनिधि चाहिए

9027776991 knlslive@gmail.com

## देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर वाराणसी से लड़ेंगी चुनाव, PM मोदी को लेकर कही बात

वाराणसी लोकसभा सीट से देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी चुनाव मैदान में होंगी। उन्होंने कहा कि वे पीएम मोदी के विरोध में नहीं हैं। देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी

वाराणसी लोकसभा सीट से मैदान में उतरेंगी। टिकट दिया है। वह 12 अप्रैल को बनारस पहुंचेंगी की शुरुआत करेंगी। महामंडलेश्वर हेमांगी सखी किन्नर समाज के लिए एक भी सीट आरक्षित विधानसभा में कैसे रखेगा? किन्नर समाज का धर्म से राजनीति की ओर रुख किया है। हेमांगी हैं, उन्होंने भी धर्म का काम किया है। हमारा प्रयास इसीलिए वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ने महामंडलेश्वर ने कहा कि सरकार ने बेटी बचाओ बेटियां जगतजननी का स्वरूप हैं लेकिन सरकार वह दिन कब आएगा? केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर पता है। जो सड़क पर भीख मांग रहे हैं, उनको पता उठाया कि जब सरकार ने पोर्टल जारी किया तो है। सरकार को किन्नर समाज के लिए सीट



अखिल भारत हिंदू महासभा ने हेमांगी सखी को बनारस से और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने चुनाव प्रचार ने कहा कि पूरे देश में किन्नर समाज की स्थिति दयनीय है। नहीं की गई है। किन्नर समाज अपनी बात लोकसभा और नेतृत्व कौन करेगा? किन्नर समाज की भलाई के लिए मैंने सखी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में नहीं सिर्फ इतना ही है कि हमारी बात सरकार के कानों तक पहुंचे। का निर्णय लिया है। अर्द्धनारीश्वर को भूल गई सरकार-बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। हम इसकी सराहना करते हैं, अर्द्धनारीश्वर को भूल गई। यह नारा हम भी सुनना चाहते हैं, पोर्टल जारी कर दिया लेकिन क्या किन्नरों को इसके बारे में ही नहीं है कि उनके लिए कोई पोर्टल भी है। उन्होंने सवाल प्रचार क्यों नहीं किया ? किन्नर बोर्ड बनाने से कुछ नहीं होता आरक्षित करनी पड़ेगी, तब जाकर स्थितियां बदलेंगी। आज

भाजपा सरकार ने किन्नरों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे होते तो शायद महामंडलेश्वर हेमांगी सखी को यह कदम नहीं उठाता पड़ता। हिंदू महासभा ने किन्नरों को मुख्य धारा में लाने के लिए, अपनी बात समाज के सामने रखने के लिए मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। यह पहल देश की हर पार्टी को करनी होगी।

#### संक्षिप्त समाचार

समस्या को गंभीरता से लेते हुए खंड विकास अधिकारी शीतलपुर को त्वरित कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए

एटा-जन सामान्य एवं राहगीरों द्वारा एटा-अलीगंज मार्ग पर वन स्टॉप सेंटर से मंडी समिति तक अंधेरा होने की शिकायत की जा

जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने उक्त शिकायत, समस्या को गंभीरता से लेते अधिकारी शीतलपुर को



त्वरित कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए जिलाधिकारी के निर्देश पर खंड विकास अधिकारी शीतलपुर उमेश कुमार अग्रवाल ने महिला वन रूप सेंटर से विकास भवन तक स्ट्रीट लाइट ग्राम पंचायत शीतलपुर द्वारा लगवाई गई जन सामान्य, राहगीरों को उक्त मार्ग पर रात्रि में अब अंधेरा नहीं मिलेगा, स्ट्रीट लाइट लगने से एटा-अलीगंज मार्ग पर वन स्टॉप सेंटर से विकास भवन मंडी समिति तक रोशनी रहेगी, साथ ही अंधेरे की वजह से दुर्घटना से भी

#### पूर्व एमएलसी व बसपा नेता चैयरमैन पत्नी समेत भाजपा में हुए शामिल

क्यूँ न लिखूँ सच

फर्रुखाबाद -बसपा को लगा बड़ा झटका पूर्व एमएलसी व बसपा नेता मनोज अग्रवाल नगर पालिका फर्रुखाबाद की अध्यक्ष

पत्नी समें त अग्रवाल भाजपा एमएलसी व 2019 लोकसभा चुनाव के बसपा प्रत्याशी थे मनोज अग्रवाल



चुनाव में भाजपा जिला अध्यक्ष की मां सुषमा गुप्ता को हराकर अध्यक्ष बनीं थी बसपा नेता की पत्नी वत्सला अग्रवाल लखनऊ में प्रदेश भाजपा कार्यालय में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल व नगर पालिका अध्यक्ष वत्सला अग्रवाल को दिलाई सदस्यता पूर्व एमएलसी के भाजपा में आने से जनपद में पार्टी को मिलेगी मजबूती सत्ताधारी दल भाजपा में शामिल होने से पूर्व एमएलसी के समर्थकों में खुशी की लहर

## को दुकान में लगी आग

क्यूँ न लिखूँ सच -प्रेमचंद जायसवाल

श्रावस्ती- हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर चौराहे पर शिवकुमार कौलिक के कपड़े की दुकान में शार्ट सर्किट से आग लग गई। जिसमे हजारों रूपये का रेडीमेड कपड़े कोट, पैंट जलकर राख हो गया। सुबह का वक्त था दुकान बंद थी और दुकान के अंदर से धुंआ निकलता हुआ बगल मे होटल मालिक ने देखा कपड़ा विऋेता शिवकुमार को फोन से बुलाया और दुकान को खुलवाया तब जल रहे कपड़ों को बुझाया गया ।

### दवा को जगह भूल कर पी ली कीटनाशक दवा महिला की हो गई मौत

क्यूँ न लिखूँ सच -प्रेमचंद जायसवाल

श्रावस्ती- थाना क्षेत्र मल्हीपुर के ग्राम पंचायत वीरपुर लौकीहा निवासिनी 50 वर्षीय श्यामा देवी पत्नी रामलाल ने रात में घर में खांसी सीरप समझकर खरबूजे में छिड़काव करने के लिए घर में एखी कीटनाशक दवा रात पी कर सो गयी सुबह जब वह नहीं उठी तो घर वाले उन्हें जगाने के लिए जोर जोर पुकारते रहे किंतु दरवाजा नहीं खुला तो घर वालों ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर पहुंचे तो देखा कि वह बदहोसी हालत में पड़ी हुई थी। तुरंत उन्हें सीएचसी मल्हीपुर अस्पताल लेकर गए जहां से उन्हें भिनगा अस्पताल रिफर कर दिया गया। इलाज जबतक चलता तबतक उनकी मौत हो गई डाक्टरों ने सूचना भिनगा कोतवाली को दी जहां पर भिनगा कोतवाली पुलिस पीएम कराने के लिखा पढ़ी में जुट गई।

हिंदी अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र देनिक क्यूँ न छिखूँ सच

को आवस्यकता है उत्तर प्रदेश . उत्तराखंड मध्य प्रदेश ,दिल्ली

,बिह्यर पंजाब छ्तीस्म्याङ् स्राजस्थान आदि सभी राज्यों से रिवोर्ट्स,जिला ब्यूसे विज्ञापन प्रतिनिधि की

राम्पर्क करे १००२ गाग ६९९१

www.knlslive.com

# More than 4 crore people are For the first time, H5N1 keep eyes healthy

Eyes are a gift of God with the help of which we are able to enjoy the beautiful sights around the world. However, in the last one or two decades, many types of eye related diseases are being seen increasing rapidly. Not only this, the risk of various eye-related problems such as premature wear of spectacles, poor vision and even blindness in serious situations has increased among young people. Health experts say, this is a matter of serious concern for the

whole world, which should be given special attention. World Health Day is celebrated every year on April 7 with the aim of increasing about the rapidly awareness among people around the world increasing health problems and educating them about prevention of diseases. In this discuss about the rapidly increasing problems blindness. Will learn about the risks. The risk of blindness has - Statistics show that the problem blindness and nearsightedness loss is among aged 50 years and above, although problems do these not occur at younger ages. It has also increased among the people. According **2020, about 43.3 million** to the data, in the year people worldwide were suffering (29.5 crore) people were reported to have

from blindness and 295 million moderate and severe vision loss. Health experts say that it is important for everyone to pay attention to eye problems and take precautions to prevent them. What is the expert's opinion? In the conversation, senior ophthalmologist Dr. Surabhi Chaudhary says, vision loss is a problem affecting the quality of life. Problems can be diagnosed and their risks prevented through timely quality eye care and testing. If problems like cataract, glaucoma, dry eyes are taken care of in the beginning, then its serious side effects and the problem of blindness caused by it can be prevented. Disturbances in lifestyle and diet can be the main reason for increasing eye problems, along with keeping it right from an early age, two measures can help in reducing the risk of serious eye-related problems and blindness to a great extent. Lifestyle And take care of diet- Dr. says, by keeping lifestyle and diet right, you can keep not only your eyes but also your entire body healthy. Including colorful vegetables and fruits in the diet is very important for eye health. The American Academy of Ophthalmology (AAO) says dark green leafy vegetables provide nutrients like lutein and zeaxanthin, which reduce the risk of chronic eye diseases. Apart from this, doing regular exercise and staying away from smoking is very important therefore it is important that you keep getting your eyes checked by a specialist annually, even if you do not have any kind of problem. These precautions can be helpful in preventing any problems from occurring in the future. It is important for everyone, from children to the

## victims of blindness, doctor infection spread from cows and told two basic mantras to cows to humans, scientists said - it is more deadly than corona

More than four years have passed since the Corona epidemic that started in December 2019, although scientists are not clear about how long it will continue. It is being said in some studies that the corona virus is undergoing mutation from time to time due to which there is a constant threat of new variants. In such a situation, it is important for all people to continue taking precautions to prevent infection. Although due to vaccination and herd immunity, serious cases of infection are now being seen less, but Covid-19 and the health risks caused by it still remain a cause of great concern. For example, the threat of Corona is not over yet, meanwhile

scientists in a have alerted another highly increasing in article, we will Recently, issued an alert flu or avian infection were people and increased H 5 N considered a and fatal for most seen H 5 N population humans can more deadly



recent report people about infectious disease America. experts have after cases of bird influenza (H5N1) reported in some cattle in America. infection serious pathogen humans. scientists say that infection be many times than corona.

than Corona - American scientists said - Bird flu has the potential to cause a devastating epidemic which can be 100 times more dangerous than Covid. While scientists around the world are busy preparing to fight the unknown Disease X, the increasing cases of H5N1 in humans have raised concerns. The US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) released a report on its website detailing the outbreak of highly pathogenic avian influenza virus in Texas and advising people to remain alert. Infection from infected cows to humans -According to the CDC report, the person found infected in Texas probably worked with cows infected with the bird flu virus. This is the first time that this virus has been found in cows and this is also the first case of bird flu spreading from cow to human. Regarding the report of investigation of the infected person, CDC experts said that genome sequencing of influenza virus was done in the patient. The virus seen in this person's body is almost identical to that found in cows and birds in Texas. Alert regarding H5N1 infection - It is noteworthy that in earlier reports also, health experts have been saying that any case of H5N1 can be worrying because it is very dangerous for humans. At present there is no indication of this virus spreading from one infected person to another. CDC is closely studying this emerging and rapidly developing problem in the United States. Experts said- It is important for people in the affected places to remain alert to prevent this disease. Close contact with wild birds, poultry, other domesticated birds and domestic animals (including cows) should be avoided. To protect yourself from bird flu, keep these things in mind - CDC said that bird flu can have for better eye health. Get your eyes checked regularly - Dr. Surbhi says, if eye problems are serious health risks, so it is important that you continue to protect yourself from its dangers. diagnosed and treated in time, then there is no risk of any serious problem. can be reduced, For this it is important to keep some things in mind. Avoid unprotected contact with animal feces, bedding, raw milk or materials that may have had contact with suspected birds or other animals. Avoid consuming meat from animals potentially infected with H5N1 bird flu virus infection. Milk should be consumed only after boiling it properly. This may help kill influenza viruses. One should avoid visiting areas where poultry is reared.

## These are the major Ram temples of India, visit them on this Ram Navami.

The holy festival of Chaitra Navratri is starting from 9th April. Ram Navami is celebrated on the last day of this nine-day festival. This year Ram Navami is being celebrated on 17 April 2024. Ram Navami is the festival of birth anniversary of Lord Shri Ram, the incarnation of Lord Vishnu. On this day, Shri Ram was born in the house of King Dasharatha in Ayodhya.

Ayodhya is the birthplace of Ram Ji, from this, during his 14 years of exile, where he killed the Lankan king the occasion of Ram Navami, then you from this, there are many ancient and darshan. Here information is being given **Raghunath Temple - The very famous** India i.e. Jammu and Kashmir. Devotees Lord Ram is present in this temple along glimpses of the characters of Ramayana in the entire country, where Lord Ram temple in Orchha district of Madhya year. Every day, a guard of honor is given to him. Ramaswamy Temple -Lord Rama is worshiped in the there are statues of Mother Sita and

elderly, to pay serious attention to eye health.



where Ram temple was built after years of struggle. Apart he stayed at many places and reached Lanka via sea route, Ravana. If you want to have darshan of Lord Shri Ram on can go to Ram Janmabhoomi temple located in Ayodhya. Apart grand Ram temples in the country, where you can go for about the most important Ram temples of the country. Raghunath temple of Lord Shri Ram is situated in Northern visiting Vaishno Devi definitely like to visit Raghunath Temple. with Mother Sita and Lakshman ji. Here one can also see and Mahabharata. Raja Ram Temple - This is the only place is worshiped in the form of King Ram. There is his palace-like Pradesh. There is a crowd of devotees here throughout the given to Lord Shri Ram in this temple and a weapon salute is There is a grand temple of Lord Ram in South India also. Ramaswamy temple of Tamil Nadu. In most of the temples, Lakshman ji along with Shri Ram. Ramaswamy is the only

temple in the country, where Shri Ram, Sita ji, Lakshman, Bharat and Shatrughan are present. The carvings of this temple depict famous events that took place according to the epic Ramayana. Kalaram Temple - There is a beautiful temple of Lord Rama in Nashik district of Maharashtra, named Kalaram Temple. During the exile, Lord Shri Ram stayed in Panchavati along with Mother Sita and brother Lakshman. Later Sardar Rangaru Odhekar built a temple at this place. There is a popular story about this that Sardar Rangaru had a dream that there was a black colored idol of Shri Ram in the Godavari river. He took out the idol the very next day and installed it in the temple. Ram Janmabhoomi Temple - Ram ji was born in Ayodhya district of Uttar Pradesh. A grand temple of Shri Ram was built here and the consecration of the temple has been done in the year 2024 itself. People are coming from abroad to visit Ram temple. Here Ram ji is present in child form. On this Ram Navami, you can go to Ram temple in Ayodhya for darshan.

www.knlslive.com

## of Gurinder Chaddha's films a hit on their own, the film, fans heart broken by very first movie created director's revelation

Gurinder Chadha is a British director of Indian origin. Gurinder is known for her excellent direction. These days Gurinder is in the headlines for her Disney film Indian Princess. Gurinder has made such a revelation regarding this film. Many fans are heartbroken after hearing




this. Director Gurinder Chadha has termed the news of Alia Bhatt being in his Disney film Indian Princess as completely wrong. Gurinder said that he has not yet finalized any actress for the film. Regarding the film, Gurinder also said that the script of the film has not been completed yet. He said this because everywhere there is talk of casting Alia Bhatt in the princess role in Gurinder's film. Denying this, the director has revealed that Alia Bhatt will not be a part of his Disney Princess. Alia's fans are very angry after hearing this. Because when the news came on social media that Alia will come on screen as a Disney princess. Alia's fans were very happy with this news, but after Gurinder's revelation, the fans have become very sad. Alia Bhatt is a successful heroine- Alia Bhatt is one of the successful actresses of Bollywood. He keeps getting praise for his excellent work in every film. Apart from being a great actress, Alia is also a great singer. He has not only acted brilliantly in many films but has also sung brilliant songs. Alia has 84 million followers on Instagram. Now that it has become clear that Gurinder will not be Princess Alia in the Disney film, the fans of the actress are heartbroken. Gurinder Chadha's disclosure - Giving information on his social media account, Gurinder wrote, "This is not true." Don't know from where this thing started. Work on the script of the film is still going on. Alia and I met for some other reason. I attended his Met Gala event." This Disney film has been announced in the year 2022. The producer-director of this film is Gurinder Chadha. The names of the cast of the film have not been decided yet. Upcoming films of Alia Bhatt - Talking about Alia Bhatt's work front, the actress will soon be seen in the film 'Jigra'. The shooting of this film is almost over. This film will be released on 27 September 2024. Apart from this, Alia will be seen with Ranveer Singh in the film 'Baiju Bawra'. Apart from this, Alia will also be a part of YRF's Spy Universe. Alia will be seen with actors Vicky Kaushal and Ranbir Kapoor in director Sanjay Leela Bhansali's film 'Love and War'.

# Alia will not be the princess These actresses made their havoc at the box office

Kareena Kapoor, Tabu and Kriti Sanon starrer 'Crew' is performing brilliantly at the box office. The film took a great opening at the box office on the very first day and is continuously earning huge profits. Even before this, many films starring actresses in lead roles have earned excellent opening on the first day. Let us tell you about those films. The first name in this list



is of the film 'Veere Di Wedding' released in the year 2018. The film stars Sonam Kapoor,



Kareena Kapoor and Swara Bhaskar in lead roles. According to media reports, this film had an opening of Rs 10.42 crore at the box office on the first day. The next name in the list is the 2016 film 'Dear Zindagi'. Alia Bhatt was in the lead role in the film. Dear Zindagi had taken an opening of 8.62 crores on the first Priyanka day.

Chopra Jonas starrer 'Mary Kom' is also included in this list. This film based on the life of boxer Mary Kom was released in the year 2014. The film took an opening of Rs 8.32 crore on the first day. Kangana Ranaut starrer film 'Tanu Weds Manu' is also included in this list. In the year 2011, this film was a superhit at the box office, taking an opening of Rs 8.61 crore on the first day at the box office.

## Nora Fatehi wants to sit on the producer's chair after acting? The actress expressed her desire

Nora Fatehi has worked in many films. He has also created his own identity as a dancer. Now her eyes are towards becoming a film producer. Nora Fatehi is not in need of any identity in Bollywood today. Nora, who has made her mark in the film industry as a dancer, is one of everyone's favorite actresses today. Nora was recently seen in the film 'Madgaon Express'. Nora

revealed about her work in an interview. work. How does she handle things - During a media interaction, Nora asked how she handles all her work, work in the morning. I work at night'. achieve her dreams. It is the result of this artist today. Showed interest in film ambition is that apart from dancing and . I am more fortunate than all those chance to fulfill them, but this did not a chance to do this work. Nora Fatehi film 'Roar: The Tiger of Siberian'. The her acting. Nora won everyone's hearts 'Satyamev Jayate'. Apart from this, the Out of which people still like to watch film - Talking about the film career of Varun Dhawan's film 'Street Dancer Nora's brilliant works. The actress also



She told how she maintains coordination in her between acting and dancing? How does she work? talked openly about her work. When Nora was Nora said, "I just work." I am alive for work. I Nora also talked about how she has struggled to hard work that she has become a multi-talented production - The actress said, 'It is my dream, my acting, I can always work as a producer-director. people who have these dreams but do not get a happen with me. I am fortunate that I am getting started her film career in Bollywood with the 2014 actress is known more for her dancing style than with the song 'Dilbar Dilbar' from the film actress has shown her dancing skills in many films. his song 'Saki Saki'. Received Filmfare for this the actress, she has also done excellent work in 3D'. The film 'Batla House' is also included among received the 66th Filmfare Award for Best

Supporting Actress for her excellent work in this film. Apart from this, Nora has also been a judge on the dance shows 'Jhalak Dikhhla Jaa' and 'India Best Dancer'.